



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]
No. 53]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2007/पौष 29, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2007/PAUSA 29, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2007

का.आ. 54(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के नामक्कल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 217.600 कि.मी. से 278.600 कि.मी. तक के भूखंड (सेलम-करूर सेक्शन) का बाईपास सहित निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, जिला नामक्कल, तमिलनाडु को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 217.600 कि मी से 278.600 कि मी तक (सेलम - करुर सेक्शन) के लिए अंजन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नामक्कल	1. नामक्कल	(1) वल्लीपुरम	255/6	निजी	शुष्क	492.5
				255/1ए2	निजी	शुष्क	576.0
				273/1सी	निजी	शुष्क	912.0
				273/2	निजी	शुष्क	968.0
				274/4	निजी	शुष्क	453.5
				274/6	निजी	शुष्क	1268.0
				274/7बी	निजी	शुष्क	343.0
				274/10ए	निजी	शुष्क	512.0
				274/10बी	निजी	शुष्क	136.0
				303/2ए1	निजी	शुष्क	1563.7
				303/2बी1	निजी	शुष्क	1009.0
				303/2सी1	निजी	शुष्क	408.0
				303/2सी2	निजी	शुष्क	1282.0
			(2) थोटिटयापट्टी	4/2	निजी	शुष्क	150.0
				4/4	निजी	शुष्क	678.0
				5/1	निजी	शुष्क	1965.0
				5/2	निजी	शुष्क	1257.0
				5/4ए	निजी	शुष्क	726.6
				5/4बी	निजी	शुष्क	674.0
				5/4सी	निजी	शुष्क	560.0
				5/4डी	निजी	शुष्क	295.0
				5/4ई	निजी	शुष्क	393.0
				6	निजी	शुष्क	3897.0
				7/1	निजी	शुष्क	1575.5
				7/3	निजी	शुष्क	519.0
				7/4	निजी	शुष्क	817.6

1	2	3	4	5	6	7	8
				8/2ए	निजी	शुष्क	2859.0
				8/2बी	निजी	शुष्क	482.0
				8/2सी	निजी	शुष्क	1199.0
				9/1	निजी	शुष्क	80.0
			(3)रासमपलायम	54/2बी	निजी	शुष्क	1238.0
				57/5	निजी	शुष्क	561.0
				57/14	निजी	शुष्क	187.0
				57/17	निजी	शुष्क	5.0
				57/23	निजी	शुष्क	479.0
				57/24	निजी	शुष्क	434.0
				60/3बी	निजी	शुष्क	654.0
				60/3सी	निजी	शुष्क	375.0
				60/3जे	निजी	शुष्क	249.0
				60/3एन1	निजी	शुष्क	80.0
				60/3एन2	निजी	शुष्क	96.0
				60/3एन3	निजी	शुष्क	344.0
				62/1सी	निजी	शुष्क	526.0
				62/1ई	निजी	शुष्क	122.0
				62/2डी	निजी	शुष्क	740.0
				62/2एच	निजी	शुष्क	2268.0
				62/2 आई	निजी	शुष्क	52.0
				62/3बी	निजी	शुष्क	236.0
				62/3डी	निजी	शुष्क	1335.0
				63/2	निजी	शुष्क	776.0
				63/3	निजी	शुष्क	682.0
				65	निजी	शुष्क	3600.0
				66/1	निजी	शुष्क	2810.0
				66/2बी	निजी	शुष्क	1605.0
				66/3बी	निजी	शुष्क	1752.0

1	2	3	4	5	6	7	8
				68/4ए	निजी	शुष्क	360.0
				68/4बी	निजी	शुष्क	544.0
				68/4सी	निजी	शुष्क	388.0
				68/6बी	निजी	शुष्क	277.0
				68/9	निजी	शुष्क	483.0
				68/11	निजी	शुष्क	11.0
				68/12	निजी	शुष्क	140.0
				68/13	निजी	शुष्क	85.0
				68/14	निजी	शुष्क	656.0
				85/2ए1	निजी	शुष्क	545.0
				88/1	निजी	शुष्क	2980.0
				88/2बी	निजी	शुष्क	1114.0
				105/1	निजी	शुष्क	4381.0
				105/4ए	निजी	शुष्क	182.0
				106/3ए	निजी	शुष्क	1597.0
				106/5बी1	निजी	शुष्क	592.0
				106/5बी2	निजी	शुष्क	257.0
				106/5बी3	निजी	शुष्क	1049.0
				106/6सी	निजी	शुष्क	292.0
				106/7सी	निजी	शुष्क	233.0
				106/11	निजी	शुष्क	272.0
				112/1जी3	निजी	शुष्क	153.0
				112/5बी2	निजी	शुष्क	171.0
				115/6	निजी	नम	2211.0
				116/3बी	निजी	नम	1490.0
				116/3सी	निजी	नम	2130.0
				116/3ई	निजी	नम	137.0
				119/1ए	निजी	शुष्क	3184.0
				120/1	निजी	शुष्क	1137.0
				120/2	निजी	शुष्क	2458.0
				123/1	निजी	शुष्क	1855.0

1	2	3	4	5	6	7	8
				123/2ए	निजी	शुष्क	1253.0
				212/1ए	निजी	शुष्क	171.0
				212/1बी	निजी	शुष्क	1859.0
				213/1	निजी	शुष्क	524.0
				213/2	निजी	शुष्क	526.0
				213/3	निजी	शुष्क	776.0
				213/4	निजी	शुष्क	558.0
				218/1ए	निजी	शुष्क	250.0
				221/1सी	निजी	शुष्क	756.0
				221/2	निजी	शुष्क	522.0
				221/3	निजी	शुष्क	1103.0
				221/5सी	निजी	शुष्क	1340.0
				221/7	निजी	शुष्क	770.0
				221/12	निजी	शुष्क	772.0
				228/1ए	निजी	शुष्क	2429.0
				228/1बी	निजी	शुष्क	1725.0
				231/1ए	निजी	शुष्क	2803.0
				231/1बी	निजी	शुष्क	1190.0
				231/1सी2	निजी	शुष्क	1600.0
				235/4	निजी	शुष्क	528.0
				250/1बी	निजी	शुष्क	141.0
				252/1ए	निजी	शुष्क	1850.0
				252/2ए	निजी	शुष्क	39.0
				252/6ए	निजी	शुष्क	415.0
				252/7ए	निजी	शुष्क	523.0
				252/8ए	निजी	शुष्क	541.9
				252/10ए	निजी	शुष्क	579.0
				252/11ए	निजी	शुष्क	198.0
				253/31	निजी	शुष्क	3.0
				253/39	निजी	शुष्क	132.0
				267/9ई	निजी	शुष्क	382.0

1	2	3	4	5	6	7	8
				278/10	निजी	शुष्क	12.0
				278/11	निजी	शुष्क	222.0
				278/12	निजी	शुष्क	300.0
				278/13बी	निजी	शुष्क	580.0
				278/14	निजी	शुष्क	107.0
				278/17ए	निजी	शुष्क	132.0
				278/17बी	निजी	शुष्क	870.0
				278/18	निजी	शुष्क	1445.0
				279/3ए	निजी	शुष्क	9.0
				279/3बी	निजी	शुष्क	270.0
				279/4ए	निजी	शुष्क	335.0
				279/7बी	निजी	शुष्क	1380.0
				279/9	निजी	शुष्क	75.0
				282/1	निजी	शुष्क	1960.0
				284/1ए	निजी	शुष्क	410.0
				284/4	निजी	शुष्क	270.0
				284/5	निजी	शुष्क	288.0
				284/8ए	निजी	शुष्क	288.0
				284/9बी2	निजी	शुष्क	70.0
				284/9बी3	निजी	शुष्क	5.0
				284/17	निजी	शुष्क	1095.0
				284/19बी	निजी	शुष्क	560.0
				284/19ई	निजी	शुष्क	1053.0
				290/13	निजी	शुष्क	136.0
				290/17ए	निजी	शुष्क	808.0
			(4) कीरामबूर	298/1	निजी	शुष्क	765.0
				298/2	निजी	शुष्क	1200.0
				324/3	निजी	नम	2400.0
				325/2ए1	निजी	नम	362.0
				325/2ए2	निजी	नम	425.0
				327/1	निजी	नम	1059.0

1	2	3	4	5	6	7	8
				325/2बी	निजी	नम	492
				325/2सी1	निजी	नम	571
				325/2सी2	निजी	नम	196
				325/3बी	निजी	नम	1046
			(5) कोनूर	23/2बी2	निजी	शुष्क	1071.0
				23/2जी1	निजी	शुष्क	651.0
				23/2 आई	निजी	शुष्क	1365.0
				25/1ए1	निजी	शुष्क	691.0
				25/1बी2	निजी	शुष्क	292.0
				26/1	निजी	शुष्क	1427.0
				26/2	निजी	शुष्क	489.0
				26/3	निजी	शुष्क	497.0
				26/4	निजी	शुष्क	1170.0
				28/1	निजी	शुष्क	1655.0
				28/2	निजी	शुष्क	4901.0
				48/2ए3	निजी	शुष्क	128.0
				48/2ए4	निजी	शुष्क	988.0
				48/2ए5	निजी	शुष्क	115.0
				48/2ए7	निजी	शुष्क	440.0
				48/2ए8	निजी	शुष्क	120.0
				49/5ए	निजी	शुष्क	200.0
				49/6ए	निजी	शुष्क	207.0
				50/1ए2	निजी	शुष्क	1036.0
				50/1ए3	निजी	शुष्क	632.0
				50/1ए4	निजी	शुष्क	131.0
				50/1ए5	निजी	शुष्क	181.0
				50/1ए6	निजी	शुष्क	289.0
				50/2बी	निजी	शुष्क	75.0
				55/1ए	निजी	शुष्क	974.0
				66/1बी2ए	निजी	शुष्क	95.0
				66/1बी2बी	निजी	शुष्क	254.0

1	2	3	4	5	6	7	8
				66/2बी1	निजी	शुष्क	88.0
				66/2बी2	निजी	शुष्क	105.0
				66/3बी1	निजी	शुष्क	157.0
				66/3बी2	निजी	शुष्क	142.0
				66/4बी	निजी	शुष्क	318.0
				67/3बी	निजी	शुष्क	1286.0
				67/4बी	निजी	शुष्क	76.0
				69/9ए	निजी	शुष्क	136.0
				69/9बी	निजी	शुष्क	546.0
				69/13ए	निजी	शुष्क	602.0
				69/15ए1	निजी	शुष्क	681.0
				69/15ए2	निजी	शुष्क	568.0
				69/16ए	निजी	शुष्क	821.0
				76/3सी	निजी	शुष्क	350.0
				79/1बी	निजी	शुष्क	746.0
				79/2बी	निजी	शुष्क	328.0
				79/3बी	निजी	शुष्क	3527.0
				79/4	निजी	शुष्क	103.0
				80/2सी	निजी	शुष्क	217.0
				80/2जी	निजी	शुष्क	204.0
				151/1ए	निजी	शुष्क	1437.0
				151/1बी	निजी	शुष्क	1453.0
				153/1	निजी	शुष्क	3621.0
				156/1ए	निजी	शुष्क	466.0
				156/1बी	निजी	शुष्क	605.0
				156/1सी	निजी	शुष्क	375.0
				156/1ई	निजी	शुष्क	579.0
				156/1जी	निजी	शुष्क	1097.0
				156/1एफ	निजी	शुष्क	17.0
				156/1एच	निजी	शुष्क	705.0
				156/1जे	निजी	शुष्क	919.0

1	2	3	4	5	6	7	8
				156/1एल	निजी	शुष्क	224.0
				156/2	निजी	शुष्क	2885.0
				163/2ए1	निजी	शुष्क	428.0
				166/1ए	निजी	शुष्क	2574.0
				166/1बी	निजी	शुष्क	1953.0
				166/1सी	निजी	शुष्क	2734.0
				166/2ए	निजी	शुष्क	894.0
				167/1	निजी	शुष्क	1567.0
				167/4ए	निजी	शुष्क	1550.0
				167/4बी	निजी	शुष्क	1250.0
				167/5ए	निजी	शुष्क	421.0
				167/5बी	निजी	शुष्क	200.0
				306/1ए	रेयतवारी	मानई	20.0
			(6)मुदलईपट्टी नल्लीपलायम ग्रूप	249/3ए	निजी	शुष्क	3465
				249/3बी	निजी	शुष्क	51
				249/4ए	निजी	शुष्क	253
				250/5बी	निजी	शुष्क	22
				259/1ए	निजी	शुष्क	735
				259/2ए1	निजी	शुष्क	213
				259/2ए3	निजी	शुष्क	35
				286/7ए1	निजी	शुष्क	764
				288/2	निजी	शुष्क	1372
				291/1बी	निजी	शुष्क	191
				291/1सी1	निजी	शुष्क	53
				293/1	निजी	शुष्क	120
				293/3	निजी	शुष्क	221
				293/4	निजी	शुष्क	345
				293/10	निजी	शुष्क	830
				293/11ए	निजी	शुष्क	1388
				293/12ए2	निजी	शुष्क	38

1	2	3	4	5	6	7	8
				293/18	निजी	शुष्क	266
				293/12ए3	निजी	शुष्क	1788
				299/2बी1	निजी	शुष्क	594
				299/2बी2	निजी	शुष्क	606
				299/2बी3	निजी	शुष्क	513
				299/4ए	निजी	शुष्क	244
				398/8	रेयतवारी	मानई	18.5
				398/9	रेयतवारी	मानई	1.5
				399/4	रेयतवारी	मानई	39
				399/7	रेयतवारी	मानई	56.5
			(7) किलसत्तामबूर	1/1ए1ए	निजी	शुष्क	338
				1/1ए1बी	निजी	शुष्क	537.5
				1/1ए1सी	निजी	शुष्क	163
				1/ए1डी	निजी	शुष्क	497
		2) पारामथी वेलूर	(1) विल्लीपलायम	294/1बी2	निजी	शुष्क	13.0
				294/1डी2ए	निजी	शुष्क	416.0
				294/1डी2बी	निजी	शुष्क	250.0
				294/1ई2	निजी	शुष्क	82.0
				294/2ए	निजी	शुष्क	895.0
			(2) पिल्लाकलात्तूर	428/2ए	निजी	शुष्क	408
				428/3	निजी	शुष्क	1337
				429/3बी	निजी	शुष्क	440
				429/4सी	निजी	शुष्क	1003
				430/2बी	निजी	शुष्क	872
				430/2सी	निजी	शुष्क	1216
				430/2डी	निजी	शुष्क	270
				430/2ई	निजी	शुष्क	3122
				430/2एफ	निजी	शुष्क	1056
				430/2जी	निजी	शुष्क	650
				436/1ए	निजी	शुष्क	1800
				436/2ए	निजी	शुष्क	5322

1	2	3	4	5	6	7	8
				451/1ए2	निजी	शुष्क	200
				451/2ए	निजी	शुष्क	683
				457/1ए9	निजी	शुष्क	463
				457/1ए10	निजी	शुष्क	478
				457/2ए1	निजी	शुष्क	1457
				457/2ए2	निजी	शुष्क	40
				457/3ए2	निजी	शुष्क	455
				458/2	निजी	शुष्क	1218
				459/1	निजी	शुष्क	1350
				459/2	निजी	शुष्क	1001
				459/3	निजी	शुष्क	1323
				459/4	निजी	शुष्क	1230
				459/5	निजी	शुष्क	740
				459/6	निजी	शुष्क	696
				459/7	निजी	शुष्क	1372
				459/10	निजी	शुष्क	1141
				459/11	निजी	शुष्क	290
				459/12	निजी	शुष्क	330
				461/1ए	निजी	शुष्क	63
				461/1बी2	निजी	शुष्क	1540
				461/2	निजी	शुष्क	4682
				473/1बी	निजी	शुष्क	541
				473/2बी	निजी	शुष्क	1055
				473/3बी	निजी	शुष्क	1504
				474/2	निजी	शुष्क	2345
				475	निजी	शुष्क	2996
				476/2ए	निजी	शुष्क	841
				476/2बी	निजी	शुष्क	394
				476/2सी	निजी	शुष्क	164
				476/3ए	निजी	शुष्क	851

1	2	3	4	5	6	7	8
				476/3बी	निजी	शुष्क	393
				480/2	निजी	शुष्क	1600
				481/1ए	निजी	शुष्क	754
				481/3ए	निजी	शुष्क	1762
				482/1	निजी	शुष्क	1558
				483/1ए1	निजी	शुष्क	549
				483/1बी	निजी	शुष्क	2126
				483/1सी	निजी	शुष्क	1372
				483/4	निजी	शुष्क	270
				484/1	निजी	शुष्क	222
			(3)पारामथी	74/1ए1	निजी	शुष्क	100
				74/1ए2	निजी	शुष्क	352
				74/1ए3	निजी	शुष्क	137
				74/1ए5	निजी	शुष्क	126
				74/1डी	निजी	शुष्क	483
				76/2बी1	निजी	शुष्क	90
				76/3बी1	निजी	शुष्क	15
				76/3बी2	निजी	शुष्क	45
				77/2ए	निजी	शुष्क	68
				77/2बी	निजी	शुष्क	498
				78/1बी	निजी	शुष्क	65
				79/1बी1ए	निजी	शुष्क	422
				141/3ए2	निजी	शुष्क	79
				147	निजी	शुष्क	2287
				148/1ई	निजी	शुष्क	766
				148/1जी	निजी	शुष्क	670
				148/1एच	निजी	शुष्क	185
				148/1 आई	निजी	शुष्क	1186
				149/4सी1	निजी	शुष्क	25
				149/4सी2	निजी	शुष्क	12
				476/7	निजी	शुष्क	142

1	2	3	4	5	6	7	8
				477/1बी	निजी	शुष्क	371
				477/2बी	निजी	शुष्क	314
				477/7सी	निजी	शुष्क	184
				478/2बी	निजी	शुष्क	500
				483ए/1	निजी	शुष्क	283
				483ए/2	निजी	शुष्क	1877
				484ए/1ए1	निजी	शुष्क	822
				484बी/1	निजी	शुष्क	307
				484बी/2	निजी	शुष्क	177
				484बी/3	निजी	शुष्क	180
				484बी/4	निजी	शुष्क	505
				484बी/5ए	निजी	शुष्क	217
				484बी/5बी	निजी	शुष्क	217
				484बी/5सी	निजी	शुष्क	106
				484बी/5डी1	निजी	शुष्क	95
				484बी/5ई	निजी	शुष्क	525
				484बी/5एफ	निजी	शुष्क	208
				484बी/6	निजी	शुष्क	1643
				491/2ए	निजी	शुष्क	256
				491/2बी	निजी	शुष्क	151
				491/2सी	निजी	शुष्क	137
				491/2ई	निजी	शुष्क	49
				491/2एफ	निजी	शुष्क	298
				500/5बी2	निजी	शुष्क	388
				500/6सी	निजी	शुष्क	70
				516/1	निजी	शुष्क	929
				516/2ए	निजी	शुष्क	438
				516/2बी	निजी	शुष्क	382
				516/3ए1	निजी	शुष्क	295
				516/3ए2	निजी	शुष्क	93

1	2	3	4	5	6	7	8
				516/3बी2	निजी	शुष्क	274
				516/6ए	निजी	शुष्क	936
				516/6बी	निजी	शुष्क	750
				516/6सी5	निजी	शुष्क	731
				518/5	निजी	शुष्क	70
				518/6	निजी	शुष्क	144
				518/9	निजी	शुष्क	151
				518/10	निजी	शुष्क	203
				518/17	निजी	शुष्क	395
				518/19	निजी	शुष्क	120
				523/2 आई	निजी	शुष्क	116
				523/3बी	निजी	शुष्क	143
				523/3सी	निजी	शुष्क	363
				524/1बी25	निजी	शुष्क	9
				524/1बी26	निजी	शुष्क	22
				524/1बी27	निजी	शुष्क	19

[फा. सं. भारास्रा/तक/उद-2/एलए/सेलम-करुर/नामक्कल/3ए और 3(डी)/2006]

पी. एस. राणा, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2007

S.O. 54(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.7, including the bypass, on the stretch of land from Km 217.600 to Km 278.600 (Salem – Karur Section) in District Namakkal, in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Revenue Officer, NH No.7, Namakkal District, Tamil Nadu, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 217.600 to Km 278.600 (Salem-Karur Section) of the National Highway No.7 in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Namakkal	1.Namakkal	(1) Vallipuram	255/6	Private	Dry	492.5
				255/1A2	Private	Dry	576.0
				273/1C	Private	Dry	912.0
				273/2	Private	Dry	968.0
				274/4	Private	Dry	453.5
				274/6	Private	Dry	1268.0
				274/7B	Private	Dry	343.0
				274/10A	Private	Dry	512.0
				274/10/B	Private	Dry	136.0
				303/2A1	Private	Dry	1563.7
				303/2B1	Private	Dry	1009.0
				303/2C1	Private	Dry	408.0
				303/2C2	Private	Dry	1282.0
			(2) Thottiyapatti	4/2	Private	Dry	150.0
				4/4	Private	Dry	678.0
				5/1	Private	Dry	1965.0
				5/2	Private	Dry	1257.0
				5/4A	Private	Dry	726.6
				5/4B	Private	Dry	674.0

1	2	3	4	5	6	7	8
				5/4C	Private	Dry	560.0
				5/4D	Private	Dry	295.0
				5/4E	Private	Dry	393.0
				6	Private	Dry	3897.0
				7/1	Private	Dry	1575.5
				7/3	Private	Dry	519.0
				7/4	Private	Dry	817.6
				8/2A	Private	Dry	2859.0
				8/2B	Private	Dry	492.0
				8/2C	Private	Dry	1199.0
				9/1	Private	Dry	80.0
			(3)Rasampalayam	54/2B	Private	Dry	1238.0
				57/5	Private	Dry	561.0
				57/14	Private	Dry	187.0
				57/17	Private	Dry	5.0
				57/23	Private	Dry	479.0
				57/24	Private	Dry	434.0
				60/3B	Private	Dry	654.0
				60/3C	Private	Dry	375.0
				60/3J	Private	Dry	249.0
				60/3N1	Private	Dry	80.0
				60/3N2	Private	Dry	96.0
				60/3N3	Private	Dry	344.0
				62/1C	Private	Dry	526.0
				62/1E	Private	Dry	122.0
				62/2D	Private	Dry	740.0
				62/2H	Private	Dry	2268.0
				62/2I	Private	Dry	52.0
				62/3B	Private	Dry	236.0
				62/3D	Private	Dry	1335.0
				63/2	Private	Dry	776.0
				63/3	Private	Dry	682.0
				65	Private	Dry	3600.0
				66/1	Private	Dry	2810.0

1	2	3	4	5	6	7	8
				66/2B	Private	Dry	1605.0*
				66/3B	Private	Dry	1752.0
				68/4A	Private	Dry	360.0
				68/4B	Private	Dry	544.0
				68/4C	Private	Dry	388.0
				68/6B	Private	Dry	277.0
				68/9	Private	Dry	483.0
				68/11	Private	Dry	11.0
				68/12	Private	Dry	140.0
				68/13	Private	Dry	85.0
				68/14	Private	Dry	656.0
				85/2A1	Private	Dry	545.0
				88/1	Private	Dry	2980.0
				88/2B	Private	Dry	1114.0
				105/1	Private	Dry	4381.0
				105/4A	Private	Dry	182.0
				106/3A	Private	Dry	1597.0
				106/5B1	Private	Dry	592.0
				106/5B2	Private	Dry	257.0
				106/5B3	Private	Dry	1049.0
				106/6C	Private	Dry	292.0
				106/7C	Private	Dry	233.0
				106/11	Private	Dry	272.0
				112/1G3	Private	Dry	153.0
				112/5B2	Private	Dry	171.0
				115/6	Private	Wet	2211.0
				116/3B	Private	Wet	1490.0
				116/3C	Private	Wet	2130.0
				116/3E	Private	Wet	137.0
				119/1A	Private	Dry	3184.0
				120/1	Private	Dry	1137.0
				120/2	Private	Dry	2458.0
				123/1	Private	Dry	1855.0
				123/2A	Private	Dry	1253.0
				212/1A	Private	Dry	171.0

1	2	3	4	5	6	7	8
				212/1B	Private	Dry	1859.0
				213/1	Private	Dry	524.0
				213/2	Private	Dry	526.0
				213/3	Private	Dry	776.0
				213/4	Private	Dry	558.0
				218/1A	Private	Dry	250.0
				221/1C	Private	Dry	756.0
				221/2	Private	Dry	522.0
				221/3	Private	Dry	1103.0
				221/5C	Private	Dry	1340.0
				221/7	Private	Dry	770.0
				221/12	Private	Dry	772.0
				228/1A	Private	Dry	2429.0
				228/1B	Private	Dry	1725.0
				231/1A	Private	Dry	2803.0
				231/1B	Private	Dry	1190.0
				231/1C2	Private	Dry	1600.0
				235/4	Private	Dry	528.0
				250/1B	Private	Dry	141.0
				252/1A	Private	Dry	1850.0
				252/2A	Private	Dry	39.0
				252/6A	Private	Dry	415.0
				252/7A	Private	Dry	523.0
				252/8A	Private	Dry	541.0
				252/10A	Private	Dry	579.0
				252/11A	Private	Dry	198.0
				253/31	Private	Dry	3.0
				253/39	Private	Dry	132.0
				267/9E	Private	Dry	382.0
				278/10	Private	Dry	12.0
				278/11	Private	Dry	222.0
				278/12	Private	Dry	300.0
				278/13B	Private	Dry	580.0
				278/14	Private	Dry	107.0
				278/17A	Private	Dry	132.0

1	2	3	4	5	6	7	8
				278/17B	Private	Dry	870.0
				278/18	Private	Dry	1445.0
				279/3A	Private	Dry	9.0
				279/3B	Private	Dry	270.0
				279/4A	Private	Dry	335.0
				279/7B	Private	Dry	1380.0
				279/9	Private	Dry	75.0
				282/1	Private	Dry	1960.0
				284/1A	Private	Dry	410.0
				284/4	Private	Dry	270.0
				284/5	Private	Dry	288.0
				284/8A	Private	Dry	288.0
				284/9B2	Private	Dry	70.0
				284/9B3	Private	Dry	5.0
				284/17	Private	Dry	1095.0
				284/19B	Private	Dry	560.0
				284/19E	Private	Dry	1053.0
				290/13	Private	Dry	136.0
				290/17A	Private	Dry	808.0
			(4) Keerambur	298/1	Private	Dry	765.0
				298/2	Private	Dry	1200.0
				324/3	Private	Wet	2400.0
				325/2A1	Private	Wet	362.0
				325/2A2	Private	Wet	425.0
				327/1	Private	Wet	1059.0
				325/2B	Private	Wet	492
				325/2C1	Private	Wet	571
				325/2C2	Private	Wet	196
				325/3B	Private	Wet	1046
			(5) Konur	23/2B2	Private	Dry	1071.0
				23/2G1	Private	Dry	651.0
				23/2I	Private	Dry	1365.0
				25/1A1	Private	Dry	691.0
				25/1B2	Private	Dry	292.0
				26/1	Private	Dry	1427.0

1	2	3	4	5	6	7	8
				26/2	Private	Dry	489.0
				26/3	Private	Dry	497.0
				26/4	Private	Dry	1170.0
				28/1	Private	Dry	1655.0
				28/2	Private	Dry	4901.0
				48/2A3	Private	Dry	128.0
				48/2A4	Private	Dry	988.0
				48/2A5	Private	Dry	115.0
				48/2A7	Private	Dry	440.0
				48/2A8	Private	Dry	120.0
				49/5A	Private	Dry	200.0
				49/6A	Private	Dry	207.0
				50/1A2	Private	Dry	1036.0
				50/1A3	Private	Dry	632.0
				50/1A4	Private	Dry	131.0
				50/1A5	Private	Dry	181.0
				50/1A6	Private	Dry	289.0
				50/2B	Private	Dry	75.0
				55/1A	Private	Dry	974.0
				66/1B2A	Private	Dry	95.0
				66/1B2B	Private	Dry	254.0
				66/2B1	Private	Dry	88.0
				66/2B2	Private	Dry	105.0
				66/3B1	Private	Dry	157.0
				66/3B2	Private	Dry	142.0
				66/4B	Private	Dry	318.0
				67/3B	Private	Dry	1286.0
				67/4B	Private	Dry	76.0
				69/9A	Private	Dry	136.0
				69/9B	Private	Dry	546.0
				69/13A	Private	Dry	602.0
				69/15A1	Private	Dry	681.0
				69/15A2	Private	Dry	568.0
				69/16A	Private	Dry	821.0
				76/3C	Private	Dry	350.0

1	2	3	4	5	6	7	8
				79/1B	Private	Dry	746.0
				79/2B	Private	Dry	328.0
				79/3B	Private	Dry	3527.0
				79/4	Private	Dry	103.0
				80/2C	Private	Dry	217.0
				80/2G	Private	Dry	204.0
				151/1A	Private	Dry	1437.0
				151/1B	Private	Dry	1453.0
				153/1	Private	Dry	3621.0
				156/1A	Private	Dry	466.0
				156/1B	Private	Dry	605.0
				156/1C	Private	Dry	375.0
				156/1E	Private	Dry	579.0
				156/1G	Private	Dry	1097.0
				156/1F	Private	Dry	17.0
				156/1H	Private	Dry	705.0
				156/1J	Private	Dry	919.0
				156/1L	Private	Dry	224.0
				156/2	Private	Dry	2885.0
				163/2A1	Private	Dry	428.0
				166/1A	Private	Dry	2574.0
				166/1B	Private	Dry	1953.0
				166/1C	Private	Dry	2734.0
				166/2A	Private	Dry	894.0
				167/1	Private	Dry	1567.0
				167/4A	Private	Dry	1550.0
				167/4B	Private	Dry	1250.0
				167/5A	Private	Dry	421.0
				167/5B	Private	Dry	200.0
				306/1A	Ryotwari	Manai	20.0
			(6)Mudalaipatti Nallipalayam Group	249/3A	Private	Dry	3465
				249/3B	Private	Dry	51
				249/4A	Private	Dry	253

1	2	3	4	5	6	7	8
				250/5B	Private	Dry	22
				259/1A	Private	Dry	735
				259/2A1	Private	Dry	213
				259/2A3	Private	Dry	35
				286/7A1	Private	Dry	764
				288/2	Private	Dry	1372
				291/1B	Private	Dry	191
				291/1C1	Private	Dry	53
				293/1	Private	Dry	120
				293/3	Private	Dry	221
				293/4	Private	Dry	345
				293/10	Private	Dry	830
				293/11A	Private	Dry	1388
				293/12A2	Private	Dry	38
				293/18	Private	Dry	266
				293/12A3	Private	Dry	1788
				299/2B1	Private	Dry	594
				299/2B2	Private	Dry	606
				299/2B3	Private	Dry	513
				299/4A	Private	Dry	244
				398/8	Ryotwari	Manai	18.5
				398/9	Ryotwari	Manai	1.5
				399/4	Ryotwari	Manai	39
				399/7	Ryotwari	Manai	56.5
			(7)Kilsattambur	1/1A1A	Private	Dry	338
				1/1A1B	Private	Dry	537.5
				1/1A1C	Private	Dry	163
				1/A1D	Private	Dry	497
		2.Paramathi Velur	(1)Villipalayam	294/1B2	Private	Dry	13.0

1	2	3	4	5	6	7	8
				294/1D2A	Private	Dry	416.0
				294/1D2B	Private	Dry	250.0
				294/1E2	Private	Dry	82.0
				294/2A	Private	Dry	895.0
			(2)Pillakalathur	428/2A	Private	Dry	408
				428/3	Private	Dry	1337
				429/3B	Private	Dry	440
				429/4c	Private	Dry	1003
				430/2B	Private	Dry	872
				430/2C	Private	Dry	1216
				430/2D	Private	Dry	270
				430/2E	Private	Dry	3122
				430/2F	Private	Dry	1056
				430/2G	Private	Dry	650
				436/1A	Private	Dry	1800
				436/2A	Private	Dry	5322
				451/1A2	Private	Dry	200
				451/2A	Private	Dry	683
				457/1A9	Private	Dry	463
				457/1A10	Private	Dry	478
				457/2A1	Private	Dry	1457
				457/2A2	Private	Dry	40
				457/3A2	Private	Dry	455
				458/2	Private	Dry	1218
				459/1	Private	Dry	1350
				459/2	Private	Dry	1001
				459/3	Private	Dry	1323
				459/4	Private	Dry	1230
				459/5	Private	Dry	740
				459/6	Private	Dry	696
				459/7	Private	Dry	1372
				459/10	Private	Dry	1141
				459/11	Private	Dry	290
				459/12	Private	Dry	330
				461/1A	Private	Dry	63

1	2	3	4	5	6	7	8
				461/1B2	Private	Dry	1540
				461/2	Private	Dry	4682
				473/1B	Private	Dry	541
				473/2B	Private	Dry	1055
				473/3B	Private	Dry	1504
				474/2	Private	Dry	2345
				475	Private	Dry	2996
				476/2A	Private	Dry	841
				476/2B	Private	Dry	394
				476/2C	Private	Dry	164
				476/3A	Private	Dry	851
				476/3B	Private	Dry	393
				480/2	Private	Dry	1600
				481/1A	Private	Dry	754
				481/3A	Private	Dry	1762
				482/1	Private	Dry	1558
				483/1A1	Private	Dry	549
				483/1B	Private	Dry	2126
				483/1C	Private	Dry	1372
				483/4	Private	Dry	270
				484/1	Private	Dry	222
			(3)Paramathi	74/1A1	Private	Dry	100
				74/1A2	Private	Dry	352
				74/1A3	Private	Dry	137
				74/1A5	Private	Dry	126
				74/1D	Private	Dry	483
				76/2B1	Private	Dry	90
				76/3B1	Private	Dry	15
				76/3B2	Private	Dry	45
				77/2A	Private	Dry	68
				77/2B	Private	Dry	498
				78/1B	Private	Dry	65
				79/1B1A	Private	Dry	422
				141/3A2	Private	Dry	79
				147	Private	Dry	2287

1	2	3	4	5	6	7	8
				148/1E	Private	Dry	766
				148/1G	Private	Dry	670
				148/1H	Private	Dry	185
				148/1I	Private	Dry	1186
				149/4C1	Private	Dry	25
				149/4C2	Private	Dry	12
				476/7	Private	Dry	142
				477/1B	Private	Dry	371
				477/2B	Private	Dry	314
				477/7C	Private	Dry	184
				478/2B	Private	Dry	500
				483A/1	Private	Dry	283
				483A/2	Private	Dry	1877
				484A/1A1	Private	Dry	822
				484B/1	Private	Dry	307
				484B/2	Private	Dry	177
				484B/3	Private	Dry	180
				484B/4	Private	Dry	505
				484B/5A	Private	Dry	217
				484B/5B	Private	Dry	217
				484B/5C	Private	Dry	106
				484B/5D1	Private	Dry	95
				484B/5E	Private	Dry	525
				484B/5F	Private	Dry	208
				484B/6	Private	Dry	1643
				491/2A	Private	Dry	256
				491/2B	Private	Dry	151
				491/2C	Private	Dry	137
				491/2E	Private	Dry	49
				491/2F	Private	Dry	298
				500/5B2	Private	Dry	388
				500/6C	Private	Dry	70

1	2	3	4	5	6	7	8
				516/1	Private	Dry	929
				516/2A	Private	Dry	438
				516/2B	Private	Dry	382
				516/3A1	Private	Dry	295
				516/3A2	Private	Dry	93
				516/3B2	Private	Dry	274
				516/6A	Private	Dry	936
				516/6B	Private	Dry	750
				516/6C5	Private	Dry	731
				518/5	Private	Dry	70
				518/6	Private	Dry	144
				518/9	Private	Dry	151
				518/10	Private	Dry	203
				518/17	Private	Dry	395
				518/19	Private	Dry	120
				523/2I	Private	Dry	116
				523/3B	Private	Dry	143
				523/3C	Private	Dry	363
				524/1B25	Private	Dry	9
				524/1B26	Private	Dry	22
				524/1B27	Private	Dry	19

[F. No. NHAI/Tech/NS-2/LA/Salem-Karur/Namakkal/3A & 3(D)/2006]

P. S. RANA, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2007

का.आ. 55(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 652 (अ), तारीख 04 मई, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii), तारीख 04 मई, 2006 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के नामक्कल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 217.600 कि.मी. से 278.600 कि.मी. (सेलम-करूर सेक्शन) तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुस्क्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 28 जून, 2006 को “दि हिन्दू” और “डेली थॉथी” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 217.600 कि. मी. से 278.600 कि. मी. तक (सेलम- करुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	मुस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				उपखंड पूर्व	उपखंड के बाद				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	नामक्कल	1. नामक्कल	(1) मुदलईपट्टी नल्लीपलायम ग्रुप	250/2ए1	250/8	निजी	शुष्क	38	अरुमुगम पुत्र पलानीसामी
				250/2बी1	250/9	निजी	शुष्क	62	अरुमुगम पुत्र पलानीसामी
				250/3ए	250/3ए2	निजी	शुष्क	220	शनमुगम पुत्र सिगप्पागाउंडर
				250/6 एच1	250/10	निजी	शुष्क	132	1. राधामनी पत्नी सेलप्पा गाउंडर 2. शान्ति पत्नी नालुसामी
				250/7	250/7बी	निजी	शुष्क	8	मुरुगसन पुत्र कुरुप्पागाउंडर
				286/1	286/1बी	निजी	शुष्क	235	राजेन्द्रन पुत्र सुन्दरम
				286/2	286/2	निजी	शुष्क	216	देवीयानि पत्नी कालीनन
				286/3	286/3	निजी	शुष्क	276	गोविन्दन पुत्र मोटीयांगाउंडर
				286/4ए	286/4ए2	निजी	शुष्क	272	चिन्नुसामी पुत्र कुरुप्पागाउंडर
				286/4बी	286/4बी2	निजी	शुष्क	89	राजेन्द्रन पुत्र सुन्दरम
				286/5	286/5बी	निजी	शुष्क	708	सेनगोटीयन पुत्र रामासामी
				286/6	286/6बी	निजी	शुष्क	1189	पालाविधा नोका को- ओपरेटिव सेवा सोसायटी
				286/7ए2	286/7ए2	निजी	शुष्क	197	शनमुगम मेनजिग पार्टनर के के पी राईस मिल
				286/8	286/8	निजी	शुष्क	265	1. चिन्नागाउंडर पुत्र रामसामीगाउंडर 2. सुब्रामनी पुत्र चिन्नागाउंडर
				286/9	286/9	निजी	शुष्क	258	कालामल पत्नी रामासामी गाउंडर
				286/10	286/10	निजी	शुष्क	122	1. मालारकोडी पत्नी सेलवाराज 2. नटराजन पुत्र अरुमुगम
				286/11	286/11	निजी	शुष्क	118	1. पोन्नामल पत्नी मरापपा गाउंडर 2. पेरीयासामी पुत्र मराप्पागाउंडर
				286/12	286/12	निजी	शुष्क	271	सेलामल पत्नी समया गाउंडर
				286/13	286/13बी	निजी	शुष्क	352	थुलासीयामल पत्नी रामासामी
					286/13सी	निजी	शुष्क	976	

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				286/14	286/14	निजी	शुष्क	67	आर.मनी पुत्र रंगांसामी गाउंडर
				286/15	286/15	निजी	शुष्क	93	नटेशन असारी पुत्र मुथुसामी
				286/16	286/16	निजी	शुष्क	218	जय अरुलचन्द्रन पुत्र नाचीमुथु
				286/17	286/17	निजी	शुष्क	199	सबापति असारी पुत्र पेरुमाल असारी
				286/18	286/18बी	निजी	शुष्क	436	कुट्टीयन्नागाउंडर पुत्र चिन्नागाउंडर
				286/19	286/19बी	निजी	शुष्क	436	पोन्नुसामी पुत्र चिन्नागाउंडर
				286/20	286/20	निजी	शुष्क	200	1. सुब्रामनीया गाउंडर पुत्र मरप्पागाउंडर 2. कन्डामल पत्नी नाचिमुथु
				286/21	286/21	निजी	शुष्क	245	1. कोलान्डावेल पुत्र पोन्नुसामी पांडिथार 2. कनडावेल पुत्र पोन्नुसामी पांडिथार 3. वडिवेल पुत्र कोलान्डावेल 4. शनमुगम पुत्र कोलान्डावेल 5. वरुदशज पुत्र कोलान्डावेल
				288/3ए	288/3ए1	निजी	शुष्क	275	1. पलानिसामीगाउंडर पुत्र रामासामीगाउंडर 2. अरुकानियामल पत्नी वनगिलीगाउंडर 3. चिनामल पत्नी पलानिसामी
				288/4	288/4ए	रैयतवारी	मनाई	164	1. कन्दासामी पुत्र रंगांसामी 2. राजामनी पत्नी कन्दासामी
				288/9	288/9ए	रैयतवारी	मनाई	6	कान्दन पुत्र रामन
				288/10	288/10ए	रैयतवारी	मनाई	91	चिन्नन पुत्र कुप्पन
				288/12	288/12ए	रैयतवारी	मनाई	114	कोन्डन पुत्र विरन
				288/13	288/13ए	रैयतवारी	मनाई	218	1. कोन्डन पुत्र मुथन 2. पलानि पुत्र मुथन
				291/1ए1	291/8	निजी	शुष्क	178	मलारकोडी पत्नी अन्नादुरई
				291/3	291/3ए	निजी	शुष्क	532	कन्दासामी पुत्र चिन्थमबिगाउंडर
				293/12ए1	293/12ए1	निजी	शुष्क	430	1. पेरियासामी पुत्र कुरुप्पागाउंडर
				299/2ए	299/2ए1	निजी	शुष्क	760	मुरलीधरन पुत्र पलानिवेल
				398/2	398/2ए	रैयतवारी	मनाई	171	1. कालीयामल पत्नी सोमासुन्दरम् 2. माईनर कार्तिकेयन पुत्र सोमासुन्दरम्
				398/3	398/3	रैयतवारी	मनाई	84	1. रंगांसामी पुत्र राजालिंगम
				398/4	398/4ए	रैयतवारी	मनाई	70	1. सेलप्पन पुत्र चिन्नागाउंडर
				398/5	398/5ए	रैयतवारी	मनाई	187	वीरप्पन पुत्र सेनगोदागाउंडर
				398/6	398/6ए	रैयतवारी	मनाई	112	पून्गोडी पत्नी सुब्रामनी
				399/3	399/3	रैयतवारी	मनाई	199.5	पलानियोडी @ कोलंडागाउंडर पुत्र रामासामी गाउंडर
				399/5	399/5ए	रैयतवारी	मनाई	177	कालीयमल पुत्री कोलंडागाउंडर
				399/6	399/6	रैयतवारी	मनाई	181	1. मुथुसामी पुत्र रामासामी 2. सेलाप्पन पुत्र रामासामी 3. थन्नामनी पत्नी थंगवेल
		(2) रासमपलायम	54/2डी	54/2डी2	निजी	शुष्क		64	1. कालीयन्ना गाउंडर पुत्र नालीयन्ना गाउंडर 2. कुप्पाना गाउंडर पुत्र ईटीगाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3. ईटीकन पुत्र पलानियांडी गाउंडर
								4. संकरन् पुत्र पलानियांडी गाउंडर
								5. नालामल पत्नी पलानियांडी गाउंडर
				57/13	57/13	निजी	शुष्क	814.1 सीरंगा गाउंडर पुत्र मरप्पागाउंडर
				57/15	57/15बी	निजी	शुष्क	84 1. मरप्पागाउंडर पुत्र सीरंगन (ए) मोटटा गाउंडर
								2. पेरीयासामी पुत्र बालन
								3. कालीयन्न पुत्र पेरीयन्ना गाउंडर
								4. माराप्पन पुत्र पलानियांडी गाउंडर
								5. कुलामल पत्नी पेरीयन्न
								6. ईटीकान्न पुत्र पेरीयन्न
								7. वियापुरी पुत्र पेरीयन्न
				57/16	57/16बी	निजी	शुष्क	614.0 पेरीयासामी पुत्र बालन
				57/19	57/19बी	निजी	शुष्क	414 1. ईडीकान्न पुत्र पेरीयन्न
								2. वियापुरी पुत्र पेरीयन्न
				57/28	57/28बी	निजी	शुष्क	79.0 1. मरप्पागाउंडर पुत्र सीरंगन (ए) मोटटा गाउंडर
								2. पेरीयासामी पुत्र बालन
								3. कालीयन्न पुत्र पेरीयन्ना गाउंडर
								4. पलानियांडीगाउंडर पुत्र कालीयन्न
								5. नालामल पत्नी माराप्पागाउंडर
								6. रामासामी पुत्र माराप्पागाउंडर
								7. कालीमुथु पुत्र कन्दासामी
								8. ईडीकान्न पुत्र पेरीयन्न
								9. वियापुरी पुत्र पेरीयन्न
				57/29	57/29बी	निजी	शुष्क	283.0 पेरीयासामी पुत्र बालन
				57/30	57/30बी	निजी	शुष्क	247 1. माराप्पागाउंडर पुत्र सिरनागाउंडर
								2. नालामल पत्नी माराप्पान
				57/31	57/31	निजी	शुष्क	233.9 पेरीयासामी पुत्र बालन
				60/3ई	60/3ई2	निजी	शुष्क	407.0 नालीयन्नगाउंडर पुत्र कुजीयन्नागाउंडर
				60/3जी	60/3जी2	निजी	शुष्क	193.0 पप्पाईमल पत्नी कालीयन्न
				60/3के	60/3के2	निजी	शुष्क	100 1. ईटीकान्न पुत्र पेरीयन्न
								2. वियापुरी पुत्र पेरीयन्न
				60/3एन4	60/3एन4	निजी	शुष्क	259.9 1. ईटीकान्न पुत्र पेरीयन्न
								2. वियापुरी पुत्र पेरीयन्न
				62/1ए	62/1ए	निजी	शुष्क	1146.2 1. ईटीकान्न पुत्र पेरीयन्न
								2. वियापुरी पुत्र पेरीयन्न
				62/1बी	62/1बी1	निजी	शुष्क	942.0 अप्पुसामी पुत्र रामासामीगाउंडर
				62/1डी	62/1डी1	निजी	शुष्क	55.0 कालीमुथु पुत्र कंडासामीगाउंडर
				62/1एफ	62/1एफ1	निजी	शुष्क	1470.0 1. ईटीकान्न पुत्र पेरीयन्न
								2. वियापुरी पुत्र पेरीयन्न
				62/1जी	62/1जी1	निजी	शुष्क	910.0 1. मरप्पागाउंडर पुत्र सीरंगागाउंडर
								2. नालियामल पत्नी माराप्पान
				62/2ए	62/2ए	निजी	शुष्क	261.4 1. कुलामल पत्नी पेरीयन्नगाउंडर
								2. ईटीकान्न पुत्र पेरीयन्न
								3. वियापुरी पुत्र पेरीयन्न

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				62/2बी	62/2बी1	निजी	शुष्क	1017.0	1. ईशवरी पत्नी रामासामी 2. पापथी पत्नी शंकर
				62/2सी	62/2सी1	निजी	शुष्क	405.0	1. किरामबुर चिन्ना इटी गाउंडर पुत्र मोटायागाउंडर
				62/2ई	62/2ई1	निजी	शुष्क	272.0	1. कुरुप्पाई पत्नी नालीयन्नगाउंडर 2. पलानिसामी पुत्र नालीयन्नगाउंडर
				62/2एफ	62/2एफ	निजी	शुष्क	556.2	1. ईटीकान्न पुत्र पेरीयन्न 2. वियापुरी पुत्र पेरीयन्न
				62/2जी	62/2जी	निजी	शुष्क	272.8	1. ईशवरी पत्नी रामासामी 2. पापथी पत्नी शंकर
				62/2पी	62/2पी1	निजी	शुष्क	324.0	1. पलानियामल पत्नी सीरंगन 2. सेलवामनी पत्नी रामामुर्ति
				62/3सी	62/3सी1	निजी	शुष्क	760.0	पेरीयासामी पुत्र कुन्जीनागाउंडर
				63/1ए	63/1ए1	निजी	शुष्क	354.0	मारीप्पन (ए) पुन्नुसामी पुत्र शंकरागाउंडर
				63/4	63/4ए	निजी	शुष्क	370.0	1. पलानियामल पत्नी सीरंगन 2. सेलवामनी पत्नी रामामुर्ति
				66/2ए	66/2ए1	निजी	शुष्क	42.0	सुबारायन पुत्र पलानिसामीगाउंडर
				66/3ए	66/3ए1	निजी	शुष्क	30.0	पेरीयासामी पुत्र कलयन्न
				85/2ए2	85/5	निजी	शुष्क	126.0	1. चिन्नागाउंडर पुत्र मारप्पागाउंडर 2. कालीयन्नागाउंडर पुत्र मारप्पागाउंडर 3. पप्पाई पत्नी कन्दासामी
				85/3	85/3	निजी	शुष्क	89.4	पोनुसामी पुत्र पुलागाउंडर
				106/5ए	106/5ए1	निजी	शुष्क	65.0	1. मुथुसामी पुत्र चिन्नागाउंडर 2. नालीयन्नगाउंडर पुत्र पलानीयांडीगाउंडर 3. सुब्रामनियम पुत्र चिन्नागाउंडर
				106/6ए	106/6ए	निजी	शुष्क	200.0	कालाईसिलवी पुत्र गर्णेशन
				106/6बी	106/6बी1	निजी	शुष्क	167.0	मुथुईया पुत्र सुबईया
				106/7ए	106/7ए	निजी	शुष्क	200.0	पलानिसामी पुत्र पोनागाउंडर
				106/7बी	106/7बी	निजी	शुष्क	200.0	1. सीरगागाउंडर पुत्र रामासामीगाउंडर 2. मुथुसामी पुत्र पलानीयांडीगाउंडर (ए) चिन्नागाउंडर 3. संगरागाउंडर पुत्र नलीनागाउंडर 4. मुथुसम पुत्र पलानीयांडीगाउंडर(ए) चिन्नागाउंडर
				108/1बी1	108/3	निजी	शुष्क	132.0	1. राखीगाउंडर पुत्र राखीयागाउंडर 2. ईलानगोवन
				108/1बी2	108/4	निजी	शुष्क	41.0	सेलमबागाउंडर पुत्र कुंजागाउंडर
				112/1ई	112/1ई2	निजी	शुष्क	500.0	सत्याबामा पत्नी केलाशागाउंडर
				112/1जी1	112/19	निजी	शुष्क	155.0	1. रामासामी पुत्र सेलाप्पागाउंडर 2. रामासामी पुत्र सेनगोथियन
				112/1जी2	112/21	निजी	शुष्क	229.0	कोलांडी पुत्र वियापुरी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				112/1 एच	112/1 एच2	निजी	शुष्क	95.0	1. माघाशवरन पुत्र कमपलाथर चैतियार 2. गोरी पत्नी माघाशवरन् 3. शानमुगम पत्नी कोलानदागाउँडर
				112/2	112/2बी	निजी	शुष्क	196.0	1. कोलान्दागाउँडर पुत्र नेलियागाउँडर
				112/3	112/3बी	निजी	शुष्क	140.0	1. कन्दासामी पुत्र पलनीयप्पन 2. रामासामी पुत्र पलनीयप्पन 3. लोमेश्वरन पुत्र पलनीयप्पन
				112/4	112/4बी	निजी	शुष्क	158.0	सैथिल पत्नी वेन्कटाचलम
				112/5बी3	112/23	निजी	शुष्क	157.0	पलानियमल पत्नी ईटागाउँडर
				112/6	112/6बी	निजी	शुष्क	41.0	1. कानडाई पत्नी पलानीसामी 2. रामासामी पुत्र सेलप्पागाउँडर
				112/7	112/7बी	निजी	शुष्क	284.0	1. नालीयन्न पुत्र वियापुरी गाउँडर
				118/1	118/1ए	निजी	शुष्क	643.0	1. पुन्नामबालम पुत्र मुथुसामी गाउँडर 2. रामालिंगम् पुत्र पालानिमालिगाउँडर
				118/2ए	118/2ए1	निजी	शुष्क	330.0	1. पुन्नामबालम पुत्र मुथुसामी गाउँडर 2. रामालिंगम् पुत्र पालानिमालिगाउँडर
				118/2बी	118/2बी1	निजी	शुष्क	449.0	1. नानजापन्न पुत्र सेनगोदागाउँडर 2. रामालिंगम् पुत्र पालानिमालिगाउँडर
				118/2सी	118/2सी1	निजी	शुष्क	77.0	1. नानजापन्न पुत्र सेनगोदागाउँडर 2. रामालिंगम् पुत्र पालानिमालिगाउँडर
				120/3	120/3ए	निजी	शुष्क	105.0	सेनगादागाउँडर पुत्र वियापुरी गाउँडर
				221/1ए	221/1ए2	निजी	शुष्क	105.0	1. सेनगलि पुत्र मुथुसामीगाउँडर 2. वियापुरी पुत्र मुथुसामीगाउँडर
				221/4	221/4बी	निजी	शुष्क	128.0	1. पलानीयांडी पुत्र मुथुसामी गाउँडर 2. सगलि पुत्र मुथुसामीगाउँडर 3. वियापुरी पुत्र मुथुसामीगाउँडर 4. मुथुसामी पुत्र कुजागाउँडर 5. सगलि पुत्र पलानीयांडी गाउँडर
				221/5डी	221/5डी	निजी	शुष्क	100.0	वियापुरी पुत्र मुथुसामीगाउँडर
				228/1सी1	228/3	निजी	शुष्क	1678.0	कालीयन्न पुत्र मथुसामी
				228/1सी2	228/4	निजी	शुष्क	1768.0	1. लक्ष्मणन् पुत्र पलानीयांडी गाउँडर 2. रामासामी पुत्र चितियन्नागाउँडर

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				228/2ए	228/2ए2	निजी	शुष्क	1455.0	1. पुगलेनधि पुत्र कालीगाउंडर
									2. रमेशकुमार पुत्र कालीगाउंडर
				228/2बी	228/2बी2	निजी	शुष्क	2960.0	1. कंडीमथी पुत्री स्थीनम (ए) कुनजागाउंडर
									2. नालुसामी पुत्र स्थीनम (ए) कुनजागाउंडर
									3. मुरुगसन पुत्र स्थीनम (ए) कुनजागाउंडर
									4. लक्ष्मी पत्नी नालुसामी
				235/1बी1	235/5	निजी	शुष्क	102.0	1. लोगनाथन पुत्र मुथुसामी गाउंडर
									2. पाप्पु पुत्री लोगनाथन
									3. शेखर पुत्र पलानिसामीगाउंडर
				237/1बी	237/1बी2	निजी	शुष्क	743.0	1. कंडीमथी पुत्री स्थीनम (ए) कुनजागाउंडर
									2. नालुसामी पुत्र स्थीनम (ए) कुनजागाउंडर
									3. मुरुगसन पुत्र स्थीनम (ए) कुनजागाउंडर
									4. लक्ष्मी पत्नी नालुसामी
				237/1सी	237/1सी2	निजी	शुष्क	552.0	1. पोन्नुसामी पुत्र करुप्पनागाउंडर
				237/1डी	237/1डी2	निजी	शुष्क	444.0	1. कंडीमथी पुत्री स्थीनम (ए) कुनजागाउंडर
									2. नालुसामी पुत्र स्थीनम (ए) कुनजागाउंडर
									3. मुरुगसन पुत्र स्थीनम (ए) कुनजागाउंडर
									4. लक्ष्मी पत्नी नालुसामी
				237/1ई	237/1ई2	निजी	शुष्क	488.0	1. अर्जुनन पुत्र सलप्पागाउंडर (ए) कोलन्डागाउंडर
				252/12ए	252/12ए	निजी	शुष्क	28.1	1. मरप्पन पुत्र सेलप्पन
									2. रामासामी पुत्र सेलप्पन
				267/9ए	267/9ए2	निजी	शुष्क	247.0	गोपालकृष्णन पुत्र रामासामी
				267/9बी	267/9बी2	निजी	शुष्क	250.0	रामासामी पुत्र मुथुसामी
				267/9सी	267/9सी2	निजी	शुष्क	297.0	थन्नावेल पुत्र मरपागाउंडर
				267/9डी	267/9डी2	निजी	शुष्क	338.0	नटेसन पुत्र मरपागाउंडर
				267/9एफ	267/9एफ	निजी	शुष्क	360.0	कन्दासामी पुत्र कालियन्नगाउंडर
				267/9जी	267/9जी	निजी	शुष्क	609.3	1. नागमल पत्नी रंगासामी
									2. मुथुसामी पुत्र पोथानेकर
				267/13	267/13बी	निजी	शुष्क	516.0	पन्नुसामी पुत्र पलानियाडीगाउंडर
				279/4बी	279/4बी	निजी	शुष्क	580.9	सुब्रह्मण्यन पुत्र पलानियप्पन
				279/5	279/5	निजी	शुष्क	559.4	सेलाममल पत्नी सेलाप्पागाउंडर
				279/6	279/6	निजी	शुष्क	264.8	सुब्रह्मण्यन पुत्र पलानियप्पन
				279/7ए	279/7ए	निजी	शुष्क	279.4	1. पुन्नीयागाउंडर पुत्र सेलाप्पागाउंडर
									2. कुप्पासामी पुत्र सेलाप्पागाउंडर
									3. नामक्कल ट्रांसपोर्ट केरीयरस (प्रा) लि. मेनजिंग डायरेक्टर चन्द्रामोहन

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				279/10	279/10बी	निजी	शुष्क	1331.0	1. रामासामी पुत्र परमासामीगाउँडर
									2. पेरुमल पुत्र करुप्पनागाउँडर
				279/13	279/13बी	निजी	शुष्क	524.0	नटेसन पुत्र कालीगाउँडर
				279/14	279/14बी	निजी	शुष्क	951.0	नटेसन पुत्र कालीगाउँडर
				284/1सी	284/1सी1	निजी	शुष्क	573.0	1. अन्नामल पत्नी रामासामीगाउँडर
									2. चिन्नाथाम्बी पुत्र सीरंगागाउँडर (ए) पेरियनागाउँडर
				284/3ए	284/3ए1	निजी	शुष्क	66.0	चिन्नाथाम्बी पुत्र पलानियाडीगाउँडर
				284/8बी	284/8बी1	निजी	शुष्क	251.0	1.रामासामी पुत्र पलानियाडीगाउँडर
									2.पलानिसामी पुत्र पलानियाडीगाउँडर
				284/19ए	284/19ए	निजी	शुष्क	93.9	1. रामासामी पुत्र पलानियाडीगाउँडर
									2. पलानसामी पुत्र पलानियाडीगाउँडर
				290/17बी	290/17बी1	निजी	शुष्क	277.0	1.नालामल पत्नी पुन्यागाउँडर
									2. पलानियमल पत्नी पलानिसामी
									3.पूनगोडी पत्नी वेलुसामी
									4.मुथुकुमार पुत्र पलानिसामी
									5. मरप्पन पुत्र पलानियाडीगाउँडर
			(3) कोनूर	22/2	22/2बी	निजी	शुष्क	463.0	अरुलमिगु कोनूर मरियामन कोविल
				23/2एफ	23/2एफ2	निजी	शुष्क	113.0	1. सेनगोदा गाउँडर पुत्र नलिगाउँडर
									2. रक्कामल पत्नी रामासामी
									3.नालुसामी पुत्र रामासामी
									4. सुबनागाउँडर पुत्र सेनगोदा गाउँडर
									5. रामासामी पुत्र मरप्पागाउँडर
				23/3बी	23/3बी2	निजी	शुष्क	641.0	1.नालुसामी पुत्र रामासामी गाउँडर
									2. रक्कामल पत्नी रामासामी गाउँडर
				25/1बी1	25/4	निजी	शुष्क	224.0	1.नालुसामी पुत्र रामासामी गाउँडर
									2. रक्कामल पत्नी रामासामी गाउँडर
				25/1बी3	25/6	निजी	शुष्क	185.0	सुबनागाउँडर पुत्र सेनगोदा गाउँडर
				25/1सी	25/1सी1	निजी	शुष्क	221.0	1. मरप्पागाउँडर पुत्र नलिगाउँडर
									2. रामासामी पुत्र मरप्पागाउँडर
				48/2ए6	48/6	निजी	शुष्क	666.0	पेरियासामी पुत्र रामासामी
				49/7ए	49/7ए2	निजी	शुष्क	446.0	1. सुबु पुत्र पवलाथागाउँडर
									2. सेनगोदान पुत्र पवलाथागाउँडर
				55/1बी	55/1बी1	निजी	शुष्क	213.0	पलनियपन पुत्र सेनगादा गाउँडर
				57/1	57/1ए	निजी	शुष्क	1127.0	1.पलनियपगाउँडर पुत्र वियापुरीगाउँडर
									2. चन्द्रमोहन पुत्र पलानियाडीगाउँडर

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				57/2	57/2ए	निजी	शुष्क	591.0	1. मुथुसामी पुत्र पलनियप्पन 2. विरियामल पत्नी पलानियाडीगाउंडर 3. कालीयन्न पुत्र पलानियाडीगाउंडर 4. नालुसामी पुत्र पलानियाडीगाउंडर 5. पलनियप्पन पुत्र नलिगाउंडर 6. मुथुसामी पुत्र सेनगादागाउंडर 7. पलानिसामी पुत्र कलियनागाउंडर 8. सुबान्न पुत्र पलानियाडीगाउंडर 9. कालीयमल पुत्री पलानियाडीगाउंडर 10. पलनियप्पन पुत्र सेनगादागाउंडर 11. अरुणागिरी पुत्र पेरियासामी 12. नागराजन् पुत्र पेरियासामी 13. जयलक्ष्मी पत्नी कन्नन 14. चन्द्रालेकामाइनर पुत्र कान्नन 15. गोपी पुत्र कान्नन गारडियन मदर जयलक्ष्मी
				58/2	58/2ए	रैयतवारी	मनाई	269.0	चोन्नपागाउंडर पुत्र विराप्पागाउंडर
				58/4	58/4	रैयतवारी	मनाई	137.5	1. चिलामल पत्नी मुथुसामी 2. विजयआनंद पुत्र मुथुसामी 3. कुमार पुत्र मुथुसामी गारडियन मदर चिलामल
				58/6	58/6ए	रैयतवारी	मनाई	47.5	1. कालीयामल पत्नी पेरियासामी गाउंडर 2. इलानगो पुत्र पेरियासामी 3. मनी पुत्र पेरियासामी
				67/1	67/1ए	निजी	शुष्क	375.0	सेलाममल पुत्री ईडी गाउंडर
				67/2	67/2ए	निजी	शुष्क	171.0	1. मुथुसामी पुत्र सेनगोदागाउंडर 2. पेरियासामी पुत्र सेनगोदागाउंडर 3. पलानियप्पन पुत्र कालीयन्न 4. सेलामल पुत्री ईडी गाउंडर 5. पेरियासामी पुत्र रामासामी 6. पोनियामल पत्नी विरप्पन 7. पाकीयम पत्नी कालीयन्न
				69/17ई	69/24	निजी	शुष्क	677.0	1. लक्ष्मणगाउंडर पुत्र सेनगोदान 2. रामासामी पुत्र सेनगोदान
				69/17एफ	69/23	निजी	शुष्क	411.0	1. लक्ष्मणगाउंडर पुत्र सेनगोदान 2. रामासामी पुत्र सेनगोदान
				69/17जी	69/22	निजी	शुष्क	898.0	पलानियप्पन पुत्र सेनगोदान
				69/18-10	69/18-10बी	रैयतवारी	मनाई	25.0	अरुमुगम पुत्र कोनडन
				69/18-16	69/18-16	रैयतवारी	मनाई	70.5	सीरगन पुत्र विलियन
				69/18-17	69/18-17बी	रैयतवारी	मनाई	32.5	कारुप्पन पुत्र विलियन
				69/18-19	69/18-19बी	रैयतवारी	मनाई	13.5	वारुथन्न पुत्र रामन
				69/18-20	69/18-20	रैयतवारी	मनाई	27.0	विरन पुत्र कावेरी
				69/18-21	69/18-21	रैयतवारी	मनाई	27.0	पलानि पुत्र वारुथन्न

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				75/5	75/5बी	निजी	शुष्क	214.0	1. विन्नापापिल्ली पत्नी पलानिवाडीगाउँडर
									2. कुपाई पत्नी सेनगोदागाउँडर
				76/1ए5	76/1ए5बी	रेयतवारी	मनाई	80.0	पेरुमल पुत्र सुब्रामनी
				76/1ए6	76/1ए6बी	रेयतवारी	मनाई	74.5	के पेरुमल
				76/1ए11	76/1ए11-बी	रेयतवारी	मनाई	144.0	सुप्पन पुत्र पलानि
				76/1ए-12	76/1ए-12बी	रेयतवारी	मनाई	124.0	पेरुमल पुत्र लक्ष्मण
				76/1ए-24	76/1ए-24बी	रेयतवारी	मनाई	2.0	कारुपन्न पुत्र विलियम
				76/1ए-28	76/1ए-28बी	रेयतवारी	मनाई	208.0	पलानि पुत्र विरल
				76/1ए-33	76/1ए-33बी	रेयतवारी	मनाई	54.0	सुब्रामनी पुत्र पेरुमल
				76/1ए-37	76/1ए-37बी	रेयतवारी	मनाई	85.0	सौरागन पुत्र काञ्चन
				76/1सी1	76/8	निजी	शुष्क	70.0	1. सेलामल पत्नी सनासानी 2. मुधुसानी पुत्र सेनगोदान 3. पाबालाधन पुत्र मोट्टयागाउँडर 4. सनुशयन पुत्र पलानिवाडी गाउँडर 5. मनीमरण पुत्र सनासानी 6. रमि पत्नी सुब्रामनी 7. अनुया पत्नी गणेशन 8. सनासानी पुत्र मुधुसानी
				76/2	76/2बी	निजी	शुष्क	1110.0	शनमुगन पुत्र पलानिय्या गाउँडर
				76/3ए	76/3ए2	निजी	शुष्क	164.0	जेगननाधन पुत्र नटेशमुकालियार
				76/3बी	76/3बी2	निजी	शुष्क	159.0	दुरईसानी पुत्र पलानिय्या मुकालियार
				76/4	76/4बी	निजी	शुष्क	904.0	पाप्पी पत्नी पलानिसानी
				80/2ए	80/2ए1	निजी	शुष्क	1578.0	रविकुमार पुत्र वेलप्पन
				80/2बी	80/2बी1	निजी	शुष्क	255.0	1. रविकुमार पुत्र वेलप्पन 2. पलानिपन्न पुत्र विरयागाउँडर 3. नालुसानी पुत्र विरयागाउँडर 4. पलानियमल पत्नी गणेशन 5. नालाधमबी पुत्र गोविन्दासानी 6. काययन पुत्र कोलाप्पापायन्न 7. कुपायामल पत्नी सेनगोदान 8. पलानिसानी पुत्र विद्यपुसीगाउँडर 9. विन्नागाउँडर पुत्र विरयागाउँडर
				138/2	138/2ए	निजी	शुष्क	269.0	सुधा पत्नी शरवणन अध्यक्ष श्री अस्सालक्ष्मी और कम्पनी निरुवनन
				153/3	153/3बी	निजी	शुष्क	798.0	धनलक्ष्मी पत्नी पलानिसानी
				156/1डी	156/1डी	निजी	शुष्क	371.0	1. सेलामल पत्नी कन्दासानी 2. नालुसानी पुत्र कन्दासानी 3. कालीयनन पुत्र कन्दासानी
				160/3बी	160/3बी2	निजी	शुष्क	262.0	पेरुमल पुत्र पेरुमलगाउँडर जयदेवी हचरिज
				161/2	161/2बी	निजी	शुष्क	773.0	पेरुमल पुत्र पेरुमलगाउँडर जयदेवी हचरिज
				161/3ए	161/3ए2	निजी	शुष्क	262.0	पलनीसानी पुत्र कुटीयनागाउँडर
				161/3बी	161/3बी2	निजी	शुष्क	467.0	कुप्पानन गाउँडर पुत्र पेरीयनागाउँडर

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				163/2ए2	163/4	निजी	शुष्क	296.0	कालीमगल सभा का सदस्य कोमारापालायम
				165/2	165/2ए	निजी	शुष्क	2324.0	1. कुप्पुसामी पुत्र नालियनगाउंडर 2. कुमारसामी पुत्र नालियनगाउंडर 3. कुमार पुत्र कोमारागाउंडर 4. सेनली पुत्र कोमारागाउंडर 5. चिन्नापागाउंडर पुत्र अरुनाचलगाउंडर 6. पलानिसामी पुत्र पलानिपपा गाउंडर 7. कन्दासामी पुत्र पेरीयासामी
				167/5सी	167/5सी1	निजी	शुष्क	12.0	1. पलनिसामी पुत्र कन्दासामी 2. चिन्नथाबी पुत्र कन्दासामी
				309/1	309/1	रैयतवारी	मनाई	109.0	सुबाया पुत्र पलनियापामुथुलियेर
				309/3	309/3	रैयतवारी	मनाई	40.5	दुरईसामीमुथुलियेर पुत्र पलनियापामुथुलियेर
				309/4	309/4	रैयतवारी	मनाई	44.5	सेलामल पत्नी मनीकम
				309/5	309/5ए	रैयतवारी	मनाई	194.5	सुन्दरराजन् पुत्र आरमुगममुथुलियर
				309/6	309/6	रैयतवारी	मनाई	104.5	मुथुसामी
				309/8	309/8ए	रैयतवारी	मनाई	114.5	मरीयप्पन् पुत्र मुथुसामी गाउंडर
				309/10	309/10ए	रैयतवारी	मनाई	11.5	एस पेरीयासामी
				309/12	309/12	रैयतवारी	मनाई	26.0	सेलवाराज पुत्र मुथुसामी
				309/13	309/13	रैयतवारी	मनाई	32.0	सुबन पुत्र चिन्नन्
				309/15	309/15	रैयतवारी	मनाई	22.5	सेलवाराज पुत्र दुरईसामी
				309/16	309/16	रैयतवारी	मनाई	26.5	के एस पेरीयासामी पुत्र सुबान्नामुथुलियर
				309/17	309/17ए	रैयतवारी	मनाई	500.0	के एस आरतनारी पुत्र सुबान्नामुथुलियर
				309/18	309/18ए	रैयतवारी	मनाई	169.0	के एस पेरीयासामी पुत्र सुबान्नामुथुलियर
				309/20	309/20	रैयतवारी	मनाई	31.0	मेरीमुथुअसारी पुत्र अन्नामुथु असारी
				309/21	309/21	रैयतवारी	मनाई	42.0	कालीयामल पत्नी सबारायन
				309/22	309/22	रैयतवारी	मनाई	40.0	कालीयामल पत्नी सबारायन
				309/23	309/23ए	रैयतवारी	मनाई	84.5	मरपान पुत्र पेलनिसामी गाउंडर
2		2) पारामथी वेलूर	(1) विल्लीपलायम	294/1ए	294/1ए2	निजी	शुष्क	336	कालीयप्पन् पुत्र पेरीयन्नागाउंडर
				294/1बी1	294/3	निजी	शुष्क	225	रासापन् पुत्र पलनिपन्
				294/1ई1	294/5	निजी	शुष्क	175	के रामासामी पुत्र कोलानदागाउंडर
				294/2बी	294/2बी2	निजी	शुष्क	830	पेरुमलगाउंडर पुत्र करुप्पन्नागाउंडर

1	2	3	4	5		6	7	8	9
			(2)पिल्लाकलाचूर	428/1सी	428/1सी2	निजी	शुष्क	34	1. पलनिनपान पुत्र मुथुसामी 2. रंगासामी पुत्र रामासामी 3. सुबामनीयन् पुत्र रंगासामी 4. कन्दासामी पुत्र रंगासामी
				428/1डी	428/1डी2	निजी	शुष्क	867	1. पलनिनपान पुत्र मुथुसामी 2. रंगासामी पुत्र रामासामी 3. सुबामनीयन् पुत्र रंगासामी 4. कन्दासामी पुत्र रंगासामी
				428/2बी	428/2बी2	निजी	शुष्क	366	1.सेनगोदा गाउंडर पुत्र करुपानागाउंडर
				428/2सी	428/2सी2	निजी	शुष्क	1148	1. सुब्रामनि पुत्र मरापन्
				429/4ए	429/4ए2	निजी	शुष्क	237	नटराज पुत्र पलानिपन 2. पदमा पत्नी नटराज 3.कृष्ण पुत्र रामासामी
				429/4बी	429/4बी2	निजी	शुष्क	249	1.राजेन्द्रन पुत्र विरपागाउंडर 2.वेलकुमार पुत्र विरपागाउंडर
				431/2	431/2बी	निजी	शुष्क	330	1.मरप्पागाउंडर पुत्र अमीयारप्पागाउंडर
				457/2ए3	457/8	निजी	शुष्क	475	पलानि जी पेरियासामी थाईलवर पी जी पी शैक्षिक सोसायटी
				460/14	460/14बी	निजी	शुष्क	263	1. पी नागराजन लिगल एडवाईजर पी जी पी शैक्षिक सोसायटी
				483/1ए2	483/6	निजी	शुष्क	441	1. पलनियपन पुत्र कालीयन्ना गाउंडर 2.पेरियामल पत्नी चिन्नापपागाउंडर 3.चन्द्रन पुत्र पलनियपन्
				484/3	484/3ए	निजी	शुष्क	344	1.विरप्पागाउंडर पुत्र कुप्पनागाउंडर 2. सेलामल पत्नी विरप्पागाउंडर
				484/4	484/4ए	निजी	शुष्क	485	1. कन्दासामी पुत्र वियापुरी 2. कुप्पुसामी पुत्र मुथुसामी गाउंडर
				484/5	484/5ए	निजी	शुष्क	474	1.विरप्पागाउंडर पुत्र कुप्पनागाउंडर 2. सेलामल पत्नी विरप्पागाउंडर
				485/1ए1	485/1ए2	निजी	शुष्क	255	1.विरप्पागाउंडर पुत्र कुप्पनागाउंडर 2. सेलामल पत्नी विरप्पागाउंडर
				485/1ए2ए	485/4	निजी	शुष्क	92	1.आर चिन्नाप्पागाउंडर पुत्र रामासामी गाउंडर 2. महालिंगम् पुत्र विरप्पागाउंडर
				485/1ए2बी	485/5	निजी	शुष्क	250	1.चिन्नाप्पागाउंडर पुत्र रामासामी गाउंडर 2. महालिंगम् पुत्र विरप्पागाउंडर
				485/1बी1	485/6	निजी	शुष्क	2137	नलुसामी पुत्र पेरियासामी
				485/1बी2ए	485/7	निजी	शुष्क	1853	सिलापा पुत्र के एम वेलूसामी
				485/1बी2बी	485/8	निजी	शुष्क	331	नाचीमुथु पुत्र पलनिपपा गाउंडर
				485/2ए	485/2ए1	निजी	शुष्क	384	2. अलगेसन पुत्र पलनिसामी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				485/2बी	485/2बी1	निजी	शुष्क	1653	1. सेलामल पत्नी पलनिसामी 2. अलगेसन पुत्र पलनिसामी 3. मारापन्न पुत्र पलनिसामी 4. नेपोलियन पुत्र पलनिसामी
			(3) पारामथी	74/1ए4	74/5	निजी	शुष्क	653	सत्यानारायणन् पुत्र सुबुकृष्णन्
				74/1ए6	74/7	निजी	शुष्क	144	पलनियन्न पुत्र विरप्पागाउंडर
				74/1बी	74/1बी1	निजी	शुष्क	225	पलनिरसामी पुत्र विरप्पागाउंडर
				74/1सी	74/1सी1	निजी	शुष्क	420	पलानियाडी गाउंडर पुत्र पलानियाडीगाउंडर
				74/1ई	74/1ई1	निजी	शुष्क	345	पलनियमल पत्नी कुमारसामी
				74/1एफ	74/1एफ1	निजी	शुष्क	451	1. नाचियपन्न पुत्र ईडीगाउंडर 2. पलनियमल पत्नी कुमारसामी
				74/2ए	74/2ए1	निजी	शुष्क	400	पलानिमलाई पुत्र कुरुजनागाउंडर
				74/2बी	74/2बी1	निजी	शुष्क	3140	सेलाप्पागाउंडर पुत्र माराप्पागाउंडर
				78/2बी	78/2बी1	निजी	शुष्क	65	1. कुरुमनागाउंडर पुत्र सदामाराप्पागाउंडर 2. पम्पथि पत्नी पलनियप्पन
				79/1बी1बी	79/4	निजी	शुष्क	166	पलानियाडीगाउंडर पुत्र विरप्पागाउंडर
				132/1बी	132/1बी1	निजी	शुष्क	3032	1. करुपाई पत्नी विरप्पागाउंडर 2. रामासामी पुत्र वैक्टावलम्
				139/1ए	139/1ए1	निजी	शुष्क	325	पलानियाडीगाउंडर पुत्र विलानकाडु विरप्पागाउंडर
				139/1बी	139/1बी1	निजी	शुष्क	962	पलानियप्पन पुत्र कुपुचिगाउंडर
				139/1सी	139/1सी1	निजी	शुष्क	1480	पलानियाडीगाउंडर पुत्र विलानकाडु विरप्पागाउंडर
				139/2	139/2ए	निजी	शुष्क	1110	सेलाप्पन पुत्र सुंगाबाई @ करुप्पन
				140/1	140/1बी	निजी	शुष्क	3497	सुबाई @ लक्ष्मी पत्नी रामासामी
				140/2	140/2बी	निजी	शुष्क	389	1. रंगासामी पुत्र रामासामीगाउंडर 2. पलानियप्पन पुत्र मुथुसामीगाउंडर 3. सुबायिन पुत्र रंगासामीगाउंडर 4. कन्दासामी पुत्र रंगासामीगाउंडर
				141/3ए1	141/4	निजी	शुष्क	353	1. सेलापन्न पुत्र कान्दाप्पागाउंडर 2. रामन पुत्र कान्दाप्पागाउंडर 3. कोलानडन पुत्र कान्दाप्पागाउंडर 4. धनापालन पुत्र कुलानुधईवेलु 5. मुथुसामी पुत्र कान्दाप्पागाउंडर
				148/1एफ	148/1एफ2	निजी	शुष्क	304	1. पलानियाडीगाउंडर पुत्र मटाईयगाउंडर @ वियापुरी गाउंडर
				477/3बी	477/3बी1	निजी	शुष्क	338	मनी पुत्र चिन्नाप्पन
				477/4	477/4ए	निजी	शुष्क	397	1. विराममल पत्नी पलानियप्पन 2. नाचिमुथु पुत्र करुप्पन्ना मुदालियार 3. नागेन्द्रन पुत्र अरुनाचला मुदालियार

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				477/5	477/5ए	निजी	शुष्क	345	1. विरप्पन पुत्र चिलाप्पा गाउंडर 2. विराममल पुत्र पलनियप्पा गाउंडर
				477/6	477/6ए	निजी	शुष्क	377	मनी पुत्र चिन्नाप्पन
				477/7ए	477/7ए1	निजी	शुष्क	343	मनी पुत्र चिन्नाप्पन
				477/7बी	477/7बी1	निजी	शुष्क	180	सम्बायाममल पत्नी चिन्नाप्पा गाउंडर
				477/8	477/8ए	निजी	शुष्क	608	1. राजा देवा सेनापति पुत्र सीनिवासन् 2. राजा सेदुपति पुत्र सीनिवासन्
				477/10	477/10ए	निजी	शुष्क	669	1. पी रंगासामी 2. पी कन्दासामी 3. पी गोबिन्दासामी
				478/2ए	478/2ए1	निजी	शुष्क	872	बालासुब्रामनियम पुत्र लाहिदासन
				483बी/1	483बी/1ए	निजी	शुष्क	1650	लोहिदासन पुत्र विरप्पागाउंडर
				483बी/2	483बी/2ए	निजी	शुष्क	1313	1. विरप्पन पुत्र पोसुगन @ चिलाप्पागाउंडर 2. कोलानदागाउंडर पुत्र चिन्ना गाउंडर
				484ए/1ए2	484ए/5	निजी	शुष्क	125	1. विरप्पन पुत्र पोसुगन @ चिलाप्पागाउंडर 2. कोलानदागाउंडर पुत्र चिन्ना गाउंडर
				484ए/1ए3	484ए/6	निजी	शुष्क	82	कुपुसामी पुत्र नालीयागाउंडर
				484ए/1ए4	484ए/7	निजी	शुष्क	82	कान्नन पुत्र पोन्नुसामी
				484ए/1बी	484ए/1बी2	निजी	शुष्क	163	सुन्दरामुर्ति पुत्र गोबिन्दासामी
				484ए/2	484ए/2बी	निजी	शुष्क	923	पापाई पत्नी सेलापागाउंडर
				484बी/5डी2	484बी/9	निजी	शुष्क	105	कृष्णामुर्ति पुत्र सुबान
				484बी/5डी3	484बी/10	निजी	शुष्क	381	1. सुब्रामणियम पुत्र सुबान 2. मुरुगनंदम पुत्र सिमियपा असासी
				491/2डी	491/2डी1	निजी	शुष्क	30	गणेशन पुत्र मुथुसामी गाउंडर
				516/3बी1	516/9	निजी	शुष्क	72	1. धनापाल पुत्र कृष्णनसामी 2. सीनिवासन् पुत्र पलानीयपा गाउंडर 3. रंगासामी गाउंडर पुत्र करुमनागाउंडर 4. कालीयप्पन पुत्र पलनियपान 5. विजयलक्ष्मी पुत्र पनीरसेलवम 6. रमेश पुत्र रंगासामी गाउंडर
				516/6सी6	516/12	निजी	शुष्क	24	1. मारापपागाउंडर पुत्र वेलागाउंडर 2. सेनगाथियन पुत्र पेरुमलगाउंडर 3. सीनिवासन् पुत्र पलनियप्पागाउंडर 4. मुरुगेशन पुत्र कलागासभापति 5. सुब्रामनी पुत्र कालीयनागाउंडर 6. राजालिंगम् पुत्र राजागाउंडर 7. मायावन पुत्र सीरगागाउंडर 8. ओ पी सुब्रामणियम

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				518/4	518/4बी	निजी	शुष्क	2	1. पलानियपन पुत्र कोलानदागाउँडर 2. कालीमुथु पुत्र करुपननागाउँडर 3. कादिरवेल पुत्र लिंगापपन 4. सुरुपरानी पत्नी परमाशिवम् 5. मुथु पुत्र परमाशिवम् 6. सरवनन पुत्र परमाशिवम् 5. विवेकनदन पुत्र परमाशिवम्
				518/18	518/18	निजी	शुष्क	315	मारुधायमल पत्नी सेलापगाउँडर
				523/3ए	523/3ए2	निजी	शुष्क	153	1. काकापाईयन @ मारुधायगाउँडर पुत्र मोटाईयगाउँडर 2. जगदीशन पुत्र सेमीअप्पन 3. नालिईनी पत्नी जगदीशन 4. थालिगा पत्नी कुमार 5. कुमार पुत्र ईश्वरन
				523/2सी2	523/8	निजी	शुष्क	392	कोन्गु कुजालारनाडु पेरीयन्नामारगल सामुग कोटामाईप्पु
				523/3डी1	523/9	निजी	शुष्क	14	1. पलानियपन पुत्र कोनन्दागाउँडर 2. जगदीशन पुत्र सेमीअप्पन 3. नालिनी पत्नी जगदीशन 4. थालिगा पत्नी कुमार 5. कुमार पुत्र ईश्वरन
				523/2जे	523/2जे2	निजी	शुष्क	107	1. पलानियपन पुत्र कोनन्दागाउँडर 2. मलाईयपन पुत्र कोनन्दागाउँडर
				523/2एम	523/2एम2	निजी	शुष्क	200	1. पलानियप्पागाउँडर पुत्र कुपानागाउँडर 2. नालुसामी पुत्र मरप्पागाउँडर
				523/7बी	523/7बी2	निजी	शुष्क	79	1. सन्नमनि पुत्र मुथुसामीपिल्लै 2. नारायणन पुत्र मुथुसामीपिल्लै 3. चिन्नपाईयन पुत्र मुथुसामीपिल्लै 4. नालेनद्रन पुत्र मुथुसामीपिल्लै 5. थंगाममल पुत्री मुथुसामीपिल्लै
				523/7सी	523/7सी2	निजी	शुष्क	133	1. कालियामल पत्नी मुरुधागाउँडर 2. जगदीशन पुत्र समीअप्पन 3. नालिनी पत्नी जगदीशन 4. थालिगा पत्नी कुमार 5. कुमार पुत्र ईश्वरन
				523/7एफ	523/7एफ2	निजी	शुष्क	163	बालासुब्रामनियम पुत्र पलानियपन
				524/1बी28	524/8	निजी	शुष्क	43	1. विरप्पन पुत्र रामासामी 2. नालियन पुत्र कन्दासामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				524/1बी2	524/9	निजी	शुष्क	44 कार्यकारी अधिकारी, परमथि टाउन पंचायत
				524/3डी	524/3डी2	निजी	शुष्क	226 1. कालियामल पत्नी मुरुधागाउंडर 2. जगदीशन पुत्र समीअप्पन 3. नालिनी पत्नी जगदीशन 4. थालिगा पत्नी कुमार 5. कुमार पुत्र ईश्वरन

[फा. सं. भाराप्र/तक/उद-2/एलए/सेलम-करुर/नामक्कल/3ए और 3(डी)/2006]

पी. एस. राणा, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2007

S.O. 55(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, (Department of Road Transport and Highways), number **S.O. 652 (E)**, dated the 4th May, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th May, 2006 and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.7, on the stretch of land from Km.217.600 to 278.600 (Salem - Karur Section) in Namakkal District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu" and "Daily Thanthi", both dated the 28th June, 2006; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 217.600 to Km 278.600 (Salem-Karur Section) on the National Highway No.7 in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the land owner / Interested persons
				Before sub division	After sub division				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Namakkal	1.Namakkal	(1)Mudalaipatti Nallipalayam Group	250/2A1	250/8	Private	Dry	38	Arumugam, S/o. Palanisamy
				250/2B1	250/9	Private	Dry	62	Arumugam, S/o. Palanisamy
				250/3A	250/3A2	Private	Dry	220	Shanmugam, S/o. Singappagounder
				250/6H1	250/10	Private	Dry	132	1)Radhamani, W/o. Sellappa Gounder, 2)Shanthi, W/o. Nallusamy
				250/7	250/7B	Private	Dry	8	Murugesan, S/o. Karuppagounder
				286/1	286/1B	Private	Dry	235	Rajendran, S/o. Sundaram
				286/2	286/2	Private	Dry	216	Deivanai, W/o. Kaliannan
				286/3	286/3	Private	Dry	276	Govindan, S/o. Mottaiyagounder
				286/4A	286/4A2	Private	Dry	272	Chinnusamy, S/o. Karuppagounder
				286/4B	286/4B2	Private	Dry	89	Rajendran, S/o. Sundaram
				286/5	286/5B	Private	Dry	708	Sengottaiyan, S/o. Ramasamy
				286/6	286/6B	Private	Dry	1189	Palavitha Nokka Co-operative Seva Society
				286/7A2	286/7A2	Private	Dry	197	Shanmugam, Managing Partner, K.K.P. Rice Mill
				286/8	286/8	Private	Dry	265	1. Chinnagounder S/o Ramasamygounder 2. Subramani S/o Chinnagounder
				286/9	286/9	Private	Dry	258	Kaliammal, W/o. Ramasamy Gounder
				286/10	286/10	Private	Dry	122	1)Malarkodi, W/o. Selvaraj, 2)Natarajan, S/o. Arumugam
				286/11	286/11	Private	Dry	118	1)Ponnammal, W/o. Marappa gounder, 2)Periasamy S/o. Marappagounder
				286/12	286/12	Private	Dry	271	Sellammal, W/o. Samaya gounder
				286/13	286/13B	Private	Dry	352	Thulasiyammal, W/o. Ramasamy
					286/13C	Private	Dry	976	
				286/14	286/14	Private	Dry	67	R. Mani, S/o. Rangasamy Gounder
				286/15	286/15	Private	Dry	93	Natesan Asari, S/o. Muthusamy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				286/16	286/16	Private	Dry	218	Jai ArulChandran S/o.Nachimuthu
				286/17	286/17	Private	Dry	199	Sabapathi Asari,S/o.Perumal Asari
				286/18	286/18B	Private	Dry	436	Kuttiannagounder, S/o.Chinnagounder
				286/19	286/19B	Private	Dry	436	Ponnusamy, S/o.Chinnagounder
				286/20	286/20	Private	Dry	200	1. Subramania gounder, S/o.marappagounder 2.Kandammal, W/o.Nachimuthu
				286/21	286/21	Private	Dry	245	1)Kolandavel, S/o.Ponnusamy Pandithar, 2)Kandavel, S/o.Ponnusamy pandithar, 3)Vadivel, S/o.Kolandavelu, 4)Shanmugam, S/o.Kolandavelu, 5) Varudara], S/o.Kolandavelu.
				288/3A	288/3A1	Private	Dry	275	1. Palanisamygounder S/o Ramasamygounder 2.Arukkaniyammal W/o Vanglilgounder 3. Chinnammal W/o Palanisamy
				288/4	288/4A	Ryotwari	Manal	164	1. Kandasamy S/o Rengasamy 2. Rajamani W/o Kandasamy
				288/9	288/9A	Ryotwari	Manal	6	Kandan,S/o.Raman
				288/10	288/10A	Ryotwari	Manal	91	Chinnan,S/o.Kuppan
				288/12	288/12A	Ryotwari	Manal	114	Kondan,S/o.Veeran
				288/13	288/13A	Ryotwari	Manal	218	1)Kondan,S/o.Muthan 2)Palani,S/o.Muthan
				291/1A1	291/8	Private	Dry	178	Malarkodi,W/o.Annadural
				291/3	291/3A	Private	Dry	532	Kandasamy S/o Chinnathambigounder
				293/12A1	293/12A1	Private	Dry	430	1.Periasamy, S/o.Karuppagounder
				299/2A	299/2A1	Private	Dry	760	Muralidharan,S/o.Palanivel
				398/2	398/2A	Ryotwari	Manal	171	1)Kallammal, W/o.Somasundaram, 2)Minor Karthikeyan, S/o.Somasundaram
				398/3	398/3	Ryotwari	Manal	84	1)Rengasamy,S/o.Rajalingam
				398/4	398/4A	Ryotwari	Manal	70	1)Sellappan, S/o.Chinnagounder
				398/5	398/5A	Ryotwari	Manal	187	Veerappan, S/o.Sengodagounder
				398/6	398/6A	Ryotwari	Manal	112	Poongodi,W/o.Subramani
				399/3	399/3	Ryotwari	Manal	199.5	Palaniandi@Kolandagounder S/o.Ramasamy gounder
				399/5	399/5A	Ryotwari	Manal	177	Kallammal, D/o.Kolandagounder

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				399/6	399/6	Ryotwari	Manai	181	1)Muthusamy,S/o.Ramasamy, 2)Sellappan,S/o.Ramasamy, 3)Thangamani,W/o.Thangavel
			(2) Rasampalayam	54/2D	54/2D2	Private	Dry	64.0	1)Kalianna Gounder,S/o.Nallianna gounder 2)Kuppapna Gounder,S/o.Ettigounder 3)Ettikkan,S/o.Palaniandi gounder, 4)Sankaran,S/o.Palaniandigounde r, 5)Nallammal,W/o.Palaniandigoun der,
				57/13	57/13	Private	Dry	814.1	Seeranga gounder,S/o.Marappagounder
				57/15	57/15B	Private	Dry	84.0	1)Marappa gounder, S/o.Seerangan(a)Mottagounder 2)Periasamy,S/o.Balan, 3)Kaliannan,S/o.Perianna gounder, 4)Marappan,S/o.Palaniandigound er, 5)Kullammal,W/o.Periannan, 6)Ettikkan,S/o.Periannan, 7)Vaiyapuri,S/o.Periannan.
				57/16	57/16B	Private	Dry	614.0	Periasamy,S/o.Balan
				57/19	57/19B	Private	Dry	414.0	1)Eddikkann,S/o.Periannan 2)Vaiyapuri,S/o.Periannan
				57/28	57/28B	Private	Dry	79.0	1)Marappa gounder, S/o.Seerangan(a)Mottagounder 2)Periasamy,S/o.Balan, 3)kaliannan,S/o.Perianna gounder, 4)Palaniandigounder, S/o.Kaliannan 5)Nallammal,W/o.Marappagounde r 6)Ramasamy,S/o.Marappagounde r, 7)Kalimuthu,S/o.Kandasamy 8)Eddikkann,S/o.Periannan 9)Vaiyapuri,S/o.Periannan
				57/29	57/29B	Private	Dry	283.0	Periasamy,S/o.Balan
				57/30	57/30B	Private	Dry	247.0	1)Marappa gounder,S/o.Seerangagounder 2)Nallammal,W/o.Marappan
				57/31	57/31	Private	Dry	233.9	Periasamy,S/o.Balan
				60/3E	60/3E2	Private	Dry	407.0	Nalliannagounder,S/o.Kunjiannag ounder
				60/3G	60/3G2	Private	Dry	193.0	Pappayammal,W/o.Kaliannan
				60/3K	60/3K2	Private	Dry	100.0	1)Ettikkan,S/o.Periannan 2)Vaiyapuri,S/o.Periannan
				60/3N4	60/3N4	Private	Dry	259.9	1)Ettikkan,S/o.Periannan 2)Vaiyapuri,S/o.Periannan
				62/1A	62/1A	Private	Dry	1146.2	1)Ettikkan,S/o.Periannan 2)Vaiyapuri,S/o.Periannan
				62/1B	62/1B1	Private	Dry	942.0	Appusamy,S/o.Ramasamygounde r
				62/1D	62/1D1	Private	Dry	55.0	Kalimuthu, S/o.Kandasamygounder
				62/1F	62/1F1	Private	Dry	1470.0	1)Ettikkan,S/o.Periannan 2)Vaiyapuri,S/o.Periannan
				62/1G	62/1G1	Private	Dry	910.0	1)Marappa gounder,S/o.Seerangagounder 2)Nallammal,W/o.Marappan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				62/2A	62/2A	Private	Dry	261.4	1)Kullammal,W/o.Periannagounder 2)Ettikkan,S/o.Periannan 3)Vaiyapuri,S/o.Periannan
				62/2B	62/2B1	Private	Dry	1017.0	1)Eswari,w/o.Ramasamy 2)Pappathi,W/o.Sankar
				62/2C	62/2C1	Private	Dry	405.0	1)Keerambur Chinna Ettigounder, S/o.Mottayagounder
				62/2E	62/2E1	Private	Dry	272.0	1)Karuppayee,W/o.Nalliannagounder 2)Palanisamy S/o Nallianna gounder
				62/2F	62/2F	Private	Dry	556.2	1)Ettikkan,S/o.Periannan 2)Vaiyapuri,S/o.Periannan
				62/2G	62/2G	Private	Dry	272.8	1)Eswari,w/o.Ramasamy 2)Pappathi,W/o.Sankar
				62/2P	62/2P1	Private	Dry	324.0	1)Palaniammal,W/o.Seerangan, 2)Selvamani,W/o.Ramamoorthy
				62/3C	62/3C1	Private	Dry	760.0	Periasamy,S/o.Kunjiannagounder
				63/1A	63/1A1	Private	Dry	354.0	Marappan(A)Ponnusamy, S/o.Sankaragounder
				63/4	63/4A	Private	Dry	370.0	1)Palaniammal,W/o.Seerangan, 2)Selvamani,W/o.Ramamoorthy
				66/2A	66/2A1	Private	Dry	42.0	Subbarayan,S/o.Palanisamygounder
				66/3A	66/3A1	Private	Dry	30.0	Periasamy,S/o.Kalainnan
				85/2A2	85/5	Private	Dry	126.0	1)Chinnagounder, S/o.Marappagounder 2)Kaliannagounder,S/o.Marappagounder, 3)Pappayee,W/o.Kandasamy
				85/3	85/3	Private	Dry	89.4	Ponnusamy,S/o.Pullagounder
				106/5A	106/5A1	Private	Dry	65.0	1)Muthusamy,S/o.Chinnagounder 2)Nalliannagounder,S/o.Palaniandigounder 3)Subramaniam,S/o.Chinnagounder
				106/6A	106/6A	Private	Dry	200.0	Kalaiselvi,W/o.Ganesan
				106/6B	106/6B1	Private	Dry	167.0	Muthaiah,S/o.Subbiah
				106/7A	106/7A	Private	Dry	200.0	Palanisamy,S/o.Ponnagounder
				106/7B	106/7B	Private	Dry	200.0	1)Seerangagounder,S/o.Ramasamy gounder, 2)Muthusamy,S/o.Palanidigounder (a)chinnagounder, 3)Sangaragounder,S/o.Nalliannagounder 4)Muthusam S/o Palaniyandigounder (a)Chinnagounder
				108/1B1	108/3	Private	Dry	132.0	1)Rakkigounder, S/o.Rakkiagounder, 2)Elangovan.
				108/1B2	108/4	Private	Dry	41.0	Selambagounder, S/o.Kunjagounder
				112/1E	112/1E2	Private	Dry	500.0	Sathyabama,W/o.Kailasagounder
				112/1G1	112/19	Private	Dry	155.0	1)Ramasamy,S/o.Sellappagounder 2)Ramasamy, S/o.Sengottaiyan
				112/1G2	112/21	Private	Dry	229.0	Kolandai, S/o.Vaiyapuri

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				112/1H	112/1H2	Private	Dry	95.0	1)Madheswarn, S/o.Kampalathar chettiar 2)Gowri,W/o.Madheswaran, 3)Shanmugam, W/o Kolandagounder
				112/2	112/2B	Private	Dry	196.0	1)Kolandagounder, S/o.Neeliagounder
				112/3	112/3B	Private	Dry	140.0	1)Kandasamy, S/o.Palaniappan, 2)Ramasamy, S/o.Palaniappan 3)Logeswaran, S/o.Palaniappan
				112/4	112/4B	Private	Dry	158.0	Senthil, W/o.Venkatachalam
				112/5B3	112/23	Private	Dry	157.0	Palaniammal, W/o.Ettigounder
				112/6	112/6B	Private	Dry	41.0	1)Kandayee, W/o.Palanisamy, 2)Ramasamy,S/o.Sellappagounder
				112/7	112/7B	Private	Dry	284.0	1)Nalliannan, S/o.Vaiyapurigounder
				118/1	118/1A	Private	Dry	643.0	1)Ponnambalam S/o.Muthusamy Gounder 2)Ramalingam, S/o.Palanimalaigounder
				118/2A	118/2A1	Private	Dry	330.0	1)Ponnambalam S/o.Muthusamy Gounder 2)Ramalingam, S/o.Palanimalaigounder
				118/2B	118/2B1	Private	Dry	449.0	1)Nanjappan,S/o.Sengodagounder, 2)Ramalingam,S/o.Palanimalaigounder
				118/2C	118/2C1	Private	Dry	77.0	1)Nanjappan,S/o.Sengodagounder, 2)Ramalingam,S/o.Palanimalaigounder
				120/3	120/3A	Private	Dry	105.0	Sengodagounder,S/o.Vaiyapurigounder
				221/1A	221/1A2	Private	Dry	105.0	1)Sengali,S/o.Muthusamygounder 2)Vaiyapuri,S/o.Muthusamygounder
				221/4	221/4B	Private	Dry	128.0	1)Palaniandi,S/o.Muthusamigounder, 2)Sengali,S/o.Muthusamygounder 3)Vaiyapuri,S/o.Muthusamygounder 4)Muthusamy,S/o.Kunjagounder, 5)Sengali,S/o.Palaniandigounder
				221/5D	221/5D	Private	Dry	100.0	Vaiyapuri,S/o.Muthusamygounder
				228/1C1	228/3	Private	Dry	1678.0	Kaliyannan S/o Muthusamy.
				228/1C2	228/4	Private	Dry	1768.0	1)Lakshmanan,S/o.Palaniandigounder 2)Ramasamy,S/o.Chettiannagounder
				228/2A	228/2A2	Private	Dry	1455.0	1)Pugalendhi,S/o.Kaligounder, 2)Rameshkumar,S/o.Kaligounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				228/2B	228/2B2	Private	Dry	2960.0 1)KandimathiD/o.Rathinam(a)Kunjagounder 2)NallusamyS/o.Rathinam(a)Kunja gounder 3)MurugesanS/o.Rathinam(a)Kunj agounder 4)Lakshmi W/o.Nallusamy
				235/1B1	235/5	Private	Dry	102.0 1)LoganathanS/o.Muthusamygoun der, 2)PappuD/o.Loganathan, 3)SekarS/o.Palanisamygounder
				237/1B	237/1B2	Private	Dry	743.0 1)KandimathiD/o.Rathinam(a)Kunj agounder 2)NallusamyS/o.Rathinam(a)Kunja gounder, 3)MurugesanS/o.Rathinam(a)Kunj agounder 4)LakshmiW/o.Nallusamy
				237/1C	237/1C2	Private	Dry	552.0 1)Ponnusamy,S/o.Karuppanagoun der
				237/1D	237/1D2	Private	Dry	444.0 1)KandimathiD/o.Rathinam(a)Kunj agounder 2)NallusamyS/o.Rathinam(a)Kunja gounder, 3)MurugesanS/o.Rathinam(a)Kunj agounder 4)LakshmiW/o.Nallusamy
				237/1E	237/1E2	Private	Dry	488.0 1)Arjunan,S/o.Sellappagounder (a)Kolandagounder
				252/12A	252/12A	Private	Dry	28.1 1)Marappan,S/o.Sellappan, 2)Ramasamy,S/o.Sellappan
				267/9A	267/9A2	Private	Dry	247.0 Gopalakrishnan,S/o.Ramasamy
				267/9B	267/9B2	Private	Dry	250.0 Ramasamy,S/o.Muthusamy
				267/9C	267/9C2	Private	Dry	297.0 Thangavel,S/o.Marappagounder
				267/9D	267/9D2	Private	Dry	338.0 Natesan,S/o.Marappagounder
				267/9F	267/9F	Private	Dry	360.0 Kandasamy,S/o.Kaliannagounder
				267/9G	267/9G	Private	Dry	609.3 1)Nagammal,W/o.Rangasamy, 2)Muthusamy,S/o.Pothanaicker
				267/13	267/13B	Private	Dry	516.0 Ponnusamy,S/o.Palaniandigoun der
				279/4B	279/4B	Private	Dry	580.9 Subramanian,S/o.Palaniappan
				279/5	279/5	Private	Dry	559.4 Sellammal,W/o.Sellappagounder
				279/6	279/6	Private	Dry	264.8 Subramanian,S/o.Palaniappan
				279/7A	279/7A	Private	Dry	279.4 1)Ponnaiyagounder,S/o.Sellappag ounder, 2)Kuppusamy,S/o.Sellappagound er, 3)Namakkal Transport Carriers (P)Ltd. Managing Director Chandramohan
				279/10	279/10B	Private	Dry	1331.0 1)Ramasamy,S/o.Paramasamygo under, 2)Perumal S/o.Kuppannagounder
				279/13	279/13B	Private	Dry	524.0 Natesan,S/o.Kaligounder
				279/14	279/14B	Private	Dry	951.0 Natesan,S/o.Kaligounder
				284/1C	284/1C1	Private	Dry	573.0 1)Angammal,W/o.Ramasamygoun der, 2)Chinnathambi,S/o.Seerangagou nder (a)Periannagounder
				284/3A	284/3A1	Private	Dry	66.0 Chinnathambi,S/o.Palaniandigoun der

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				284/8B	284/8B1	Private	Dry	251.0	1)Ramasamy,S/o.Palaniandigounder, 2)Palanisamy,S/o.Palaniandigounder
				284/19A	284/19A	Private	Dry	93.9	1)Ramasamy,S/o.Palaniandigounder, 2)Palanisamy,S/o.Palaniandigounder
				290/17B	290/17B1	Private	Dry	277.0	1)Nallammal,W/o.Ponniagounder, 2)palaniammal,W/o.Palanisamy, 3)Poongodi,W/o.Velusamy, 4)Muthukumar,S/o.Palanisamy, 5)Marappan,S/o.Palaniadigounder
			(3) Konur	22/2	22/2B	Private	Dry	463.0	Arulmigu Konur Mariamman Kovil
				23/2F	23/2F2	Private	Dry	113.0	1)Sengoda Gounder,S/o.Nalligounder 2) Rakkammal W/o.Ramasamy, 3) Nallusamy, S/o.Ramasamy. 4) SubbannaGounderS/o.Sengoda Gounder 5) Ramasamy, S/o.Marappa Gounder.
				23/3B	23/3B2	Private	Dry	641.0	1)Nallusamy,S/o.Ramasamy Gounder, 2)Rakkammal, W/o.Ramasamy Gounder,
				25/1B1	25/4	Private	Dry	224.0	1)Nallusamy,S/o.Ramasamy Gounder, 2)Rakkammal, W/o.Ramasamy Gounder,
				25/1B3	25/6	Private	Dry	185.0	Subbanna Gounder S/o.Sengoda Gounder
				25/1C	25/1C1	Private	Dry	221.0	1)Marappa Gounder,S/o.Nalli Gounder 2)Ramasamy,S/o.MarappaGounder
				48/2A6	48/6	Private	Dry	666.0	Periasamy,S/o.Ramasamy,
				49/7A	49/7A2	Private	Dry	446.0	1)Subbu,S/o.PavalathaGounder, 2)Sengodan,S/o.Pavalatha Gounder
				55/1B	55/1B1	Private	Dry	213.0	Palaniappan S/o.Sengoda Gounder
				57/1	57/1A	Private	Dry	1127.0	1)Palaniappa Gounder,S/o.Vaiyapuri Gounder 2)Chandramohan,S/o.PalaniandiGounder
				57/2	57/2A	Private	Dry	591.0	1)Muthusamy,S/o.Palaniappan, 2)Veerayammal,W/o.Palaniandi gounder, 3)Kaliannan,S/o.Palaniandi Gounder 4)Nallusamy S/o.PalaniandiGounder, 5)Palaniappan,S/o.Nalligounder 6)Muthusamy,S/o.Sengodagounder, 7)Palanisamy,S/o.Kalliannagounder, 8)Subbannan,S/o.Palaniandigounder.

भाग II - खण्ड 3(ii)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								9)Kaliammal,D/o.Palaniandigounder, 10)Palaniappan,S/o.Sengodagounder, 11)Arunagiri,S/o.Periasamy, 12)Nagarajan,S/o.Pegiasamy, 13)Jayalakshmi,W/o.Kannan, 14)ChandralekaminorD/o.Kamman 15)Gopi,S/o.Kannan Guardian Mother Jayalakshmi	
				58/2	58/2A	Ryotwari	Manai	269.0	Chonnappagounder S/o Veerappagounder
				58/4	58/4	Ryotwari	Manai	137.5	1)Chellammal W/o Muthusamy 2)VijayAnand S/o Muthsamy 3) Kumar S/o Muthsamy Gardian Mother Chellammal.
				58/6	58/6A	Ryotwari	Manai	47.5	Kaliyammal W/o Periyasamy gounder 2)Elango S/oPeriyasamy 3)Mani S/o Periyasamy
				67/1	67/1A	Private	Dry	375.0	Sellammal,D/o.Eddigounder
				67/2	67/2A	Private	Dry	171.0	1)Muthusamy,S/o.Sengodagounder er, 2)Periasamy,S/o.Sengodagounder, 3)PalaniappanS/o.Kaliannan 4)Sellammal,D/o.Eddigounder 5)Periasamy,S/o.Ramasamy, 6)Ponnayammal,W/o.Veerappan 7)Packiam,W/o.Kaliannan
				69/17E	69/24	Private	Dry	677.0	1)Lakshmangounder,S/o.Sengodan, 2)Ramasamy,S/o.Sengodan
				69/17F	69/23	Private	Dry	411.0	1)Lakshmangounder,S/o.Sengodan, 2)Ramasamy,S/o.Sengodan
				69/17G	69/22	Private	Dry	898.0	Palaniappan,S/o.Sengodan
				69/18-10	69/18-10B	Ryotwari	Manai	25.0	Arumugam S/o Kondan
				69/18-16	69/18-16	Ryotwari	Manai	70.5	Seerangan S/o Velliyan
				69/18-17	69/18-17B	Ryotwari	Manai	32.5	Karuppan S/o Velliyan
				69/18-19	69/18-19B	Ryotwari	Manai	13.5	Varuthan S/o Raman
				69/18-20	69/18-20	Ryotwari	Manai	27.0	Veeran S/o Kaveri
				69/18-21	69/18-21	Ryotwari	Manai	27.0	Palani S/o Varuthan
				75/5	75/5B	Private	Dry	214.0	1)Chinnappillai W/o Palniyandigounder 2)Kuppayee w/oSengodagounder
				76/1A5	76/1A5B	Ryotwari	Manai	80.0	Perumal S/o Subramani
				76/1A6	76/1A6B	Ryotwari	Manai	74.5	K.Perumal
				76/1A11	76/1A11-B	Ryotwari	Manai	144.0	Suppan S/o Palani
				76/1A-12	76/1A-12B	Ryotwari	Manai	124.0	Perumal S/o Lakhsman
				76/1A-24	76/1A-24B	Ryotwari	Manai	2.0	Karuppan S/o V ellayan
				76/1A-28	76/1A-28B	Ryotwari	Manai	206.0	Palani S/o Veeran
				76/1A-33	76/1A-33B	Ryotwari	Manai	54.0	Subramani S/o Perumal
				76/1A-37	76/1A-37B	Ryotwari	Manai	85.0	Seerangan S/o Kanthan
				76/1C1	76/6	Private	Dry	70.0	1)Sellammal,W/o.Ramasamy 2)Muthusamy,S/o.Sengodan, 3)Pavalathan,S/o.Mottaya Gounder, 4)Subburayan,S/o.Palaniandi Gounder, 5)Manimaran,S/o.Ramasamy, 6)Shanthi w/oSubramani,

1	2	3	4	5		6	7	8	9
									7)Amutha, W/o. Ganesan, 8)Ramasamy, S/o. Muthusamy
				76/2	76/2B	Private	Dry	1110.0	Shanmugam, S/o. Palaniappa Gounder
				76/3A	76/3A2	Private	Dry	164.0	Jegannathan, S/o. Natesamudaliar
				76/3B	76/3B2	Private	Dry	159.0	Duraisamy, S/o. PalaniappaMudali r
				76/4	76/4B	Private	Dry	904.0	Pappathi, W/o. Palanisamy
				80/2A	80/2A1	Private	Dry	1578.0	Ravikumar, S/o. Velappan
				80/2B	80/2B1	Private	Dry	255.0	1)Ravikumar, S/o. Velappan 2)Palaniappan, S/o. Veerappagoun der, 3)Nallusamy, S/o. Veerappagounde r 4)Palaniammal, W/o. Ganesan, 5)Nallathambi, S/o. Govindasamy, 6)Kaiannan, S/o. Kolandapaiyan, 7)Kuppayammal, W/o. Sengodan, 8)Palanisamy, S/o. Vaiyapurigound er 9)Chinnagounder, S/o. Veerappago under
				138/2	138/2A	Private	Dry	269.0	Sudha, W/o. Saravanan President SriAstalakshmi & Co Niruvanam
				153/3	153/3B	Private	Dry	798.0	Dhanalakshmi, W/o. Palanisamy
				156/1D	156/1D	Private	Dry	371.0	1)Sellammal, W/o. Kandasamy 2)Nallusamy, S/o. Kandasamy, 3)Kalaianan, S/o. Kandasamy
				160/3B	160/3B2	Private	Dry	262.0	Perumal S/o. Perumalgounder, Jeyedevi Hatcheries
				161/2	161/2B	Private	Dry	773.0	Perumal S/o. Perumalgounder, Jeyedevi Hatcheries
				161/3A	161/3A2	Private	Dry	262.0	Palanisamy, S/o. KuttiannaGounder
				161/3B	161/3B2	Private	Dry	467.0	Kuppanna Gounder, S/o. Perianna gounder
				163/2A2	163/4	Private	Dry	296.0	Member of Kalaimagal sabha, Komarapalayam
				165/2	165/2A	Private	Dry	2324.0	1)Kuppusamy, S/o. Nalliannagound er, 2)Kumarasamy, S/o. Nalliannagoun der, 3)Kumar, S/o. Komaragounder, 4)Sengali, S/o. Komaragounder 5)Chinnappagounder, S/oArunach alagounder 6)Palanisamy, S/o. Palaniappa gounder, 7)Kandasamy, S/o. Periasamy
				167/5C	167/5C1	Private	Dry	12.0	1)Palanisamy, S/o. Kandasamy 2)Chinnathambi, S/o. Kandasamy
				309/1	309/1	Ryotwari	Manai	109.0	Subbaya S/o Palaniyappamuthaliyar
				309/3	309/3	Ryotwari	Manai	40.5	Duraisamymuthaliyar S/o Palaniyappamuthaliyar
				309/4	309/4	Ryotwari	Manai	44.5	Sellammal W/o Manickam
				309/5	309/5A	Ryotwari	Manai	194.5	Sundarrajan S/o Arumugamuthaliyar
				309/6	309/6	Ryotwari	Manai	104.5	Muthsamy
				309/8	309/8A	Ryotwari	Manai	114.5	Marappan S/o Muthusamygounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				309/10	309/10A	Ryotwari	Manai	11.5	S.Periyasamy
				309/12	309/12	Ryotwari	Manai	26.0	Selvaraj S/o Muthusamy
				309/13	309/13	Ryotwari	Manai	32.0	Subban S/o Chinnan
				309/15	309/15	Ryotwari	Manai	22.5	Selvaraj S/o Duraisamy
				309/16	309/16	Ryotwari	Manai	26.5	K.S.Periyasamy S/o Subbannamuthaliyar
				309/17	309/17A	Ryotwari	Manai	500.0	K.S.Arthanari S/o Subbannamuthaliyar
				309/18	309/18A	Ryotwari	Manai	169.0	K.S.Periyasamy S/o Subbannamuthaliyar
				309/20	309/20	Ryotwari	Manai	31.0	MarimuthuAsari S/o Angamuthu Asari
				309/21	309/21	Ryotwari	Manai	42.0	Kaliyammal W/o Subbarayan
				309/22	309/22	Ryotwari	Manai	40.0	Kaliyammal W/o Subbarayan
				309/23	309/23A	Ryotwari	Manai	84.5	Marappan S/o Palanisamy gounder
		2. Paramethi Velur	(1) Villipalayam	294/1A	294/1A2	Private	Dry	336	Kaliappan, S/o.PeriannaGounder,
				294/1B1	294/3	Private	Dry	225	Rasappan, S/o.Palaniappan
				294/1E1	294/5	Private	Dry	175	K.Ramasamy, S/o.Kolandagounder,
				294/2B	294/2B2	Private	Dry	830	Perumalgounder, S/o Karuppannagounder
			(2)Pillakalathur	428/1C	428/1C2	Private	Dry	34	1)Palaniyappan S/o Muthusamy 2)Rangasamy,S/o.Ramasamy 3)Subramanian, S/o.Rangasamy 4)Kandasamy,S/o.Rangasamy
				428/1D	428/1D2	Private	Dry	867	1)Palaniyappan S/o Muthusamy 2)Rangasamy,S/o.Ramasamy 3)Subramanian, S/o.Rangasamy 4)Kandasamyy, S/o.Rangasamy
				428/2B	428/2B2	Private	Dry	366	1)Sengodagounder, S/o.Karuppannagounder
				428/2C	428/2C2	Private	Dry	1148	1)Subramani,S/o.Marappan
				429/4A	429/4A2	Private	Dry	237	1)Nataraj,S/o.Palaniappan, 2)Padma,W/o.Nataraj 3)Krishnan,S/o.Ramasamy
				429/4B	429/4B2	Private	Dry	249	1)Rajendran S/o Veerappagounder, 2)Velkumar S/o Veerappagounder
				431/2	431/2B	Private	Dry	330	1. Marappagounder S/o Ammaiappagounder
				457/2A3	457/8	Private	Dry	475	Palani G.Periasamy, Thailvar, PGP Educational Society.
				460/14	460/14B	Private	Dry	263	1.P.Nagarajan, Legal Adviser. PGP Educational Society.
				483/1A2	483/6	Private	Dry	441	1. Palaniappan S/o Kaliannagounder 2. Periammal W/o Chinnappagounder, 3. Chandran S/o Palaniappan
				484/3	484/3A	Private	Dry	344	1.Veerappagounder S/o Kuppannagounder 2. Sellammal W/o Veerappagounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				484/4	484/4A	Private	Dry	485 1. Kandasamy S/o Vaiyapuri, 2. Kuppusamy S/o Muthusamygounder
				484/5	484/5A	Private	Dry	474 1. Veerappagounder S/o Kuppannagounder 2. Sellammal W/o Veerappagounder
				485/1A1	485/1A2	Private	Dry	255 1) Veerappa Gounder S/o. Kuppannagounder, 2) Sellammal, W/o. Veerappagounder
				485/1A2A	485/4	Private	Dry	92 1) R. Chinnappagounder, S/o. Ramasamy Gounder, 2) Mahalingam, S/o. Veerappagounder
				485/1A2B	485/5	Private	Dry	250 1) Chinnappagounder S/o. Ramasamy Gounder, 2) Mahalingam S/o. Veerappagounder
				485/1B1	485/6	Private	Dry	2137 1) Nallusamy, S/o. Periasamy
				485/1B2A	485/7	Private	Dry	1853 Sellappa, S/o. K.M. Velusamy
				485/1B2B	485/8	Private	Dry	331 Natchimuthu, S/o. Palaniappa Gounder
				485/2A	485/2A1	Private	Dry	384 Alagesan, S/o. Palanisamy
				485/2B	485/2B1	Private	Dry	1653 1) Sellammal, W/o. Palanisamy, 2) Alagesan, S/o. Palanisamy, 3) Marappan, S/o. Palanisamy, 4) Nepolian, S/o. Palanisamy.
			(3) Paramathi	74/1A4	74/5	Private	Dry	653 Sathyanarayanan, S/o. Subbukrishnan
				74/1A6	74/7	Private	Dry	144 Palaniappan, S/o. Veerappagounder
				74/1B	74/1B1	Private	Dry	225 Palanisamy S/o. Veerappagounder
				74/1C	74/1C1	Private	Dry	420 Palaniandi Gounder, S/o. Palaniandigounder
				74/1E	74/1E1	Private	Dry	345 Palaniammal, W/o. Kumarasamy
				74/1F	74/1F1	Private	Dry	451 1) Nachiappan, S/o. Eddigounder 2) Palaniammal, W/o. Kumarasamy
				74/2A	74/2A1	Private	Dry	400 Palanimalai, S/o. Karuppannagounder
				74/2B	74/2B1	Private	Dry	3140 Sellappagounder, S/o. Marappagounder
				78/2B	78/2B1	Private	Dry	65 1) Karumanagounder, S/o. Sadamarappagounder, 2) Pappathi, W/o. Palaniappan
				79/1B1B	79/4	Private	Dry	166 Palaniandigounder S/o. Veerappagounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				132/1B	132/1B1	Private	Dry	3032	1)Karuppayee, W/o. Veerappagounder, 2)Ramasamy, S/o. Venkatachalam.
				139/1A	139/1A1	Private	Dry	325	Palaniandigounder, S/o. Velankadu Veerappagounder
				139/1B	139/1B1	Private	Dry	962	Palaniappan, S/o. Kuppuchigounder
				139/1C	139/1C1	Private	Dry	1480	Palaniandigounder, S/o. Velankadu Veerappagounder
				139/2	139/2A	Private	Dry	1110	Sellappan, S/o. Sungabai @ Karuppannan
				140/1	140/1B	Private	Dry	3497	Subbayee@ Lakshmi, W/o. Ramasamy
				140/2	140/2B	Private	Dry	389	1)Rangasamy S/oRamasamygounder 2)Palaniappan S/oMuthusamygounder 3)Subbaiyan, S/o. Rahgasamygounder, 4)Kandasamy S/oRangasamygounder
				141/3A1	141/4	Private	Dry	353	1)Sellappan S/o. Kandappagounder 2)Raman, S/o. Kandappagounder 3)Kolandan S/oKandappagounder 4)DhanapalanS/o. Kulanidaivelu
				148/1F	148/1F2	Private	Dry	304	1)Palaniandigounder S/o. Mottaiyagounder @ Vaiyapurigounder.
				477/3B	477/3B1	Private	Dry	338	Mani, S/o. Chinnappan
				477/4	477/4A	Private	Dry	397	1)Veerammal, W/o. Palaniappan 2)Nachimuthu, S/o. Karuppanna Mudaliar, 3)Nagendran, S/o. Arunachala Mudaliar.
				477/5	477/5A	Private	Dry	345	1)Veerappan, S/o. ChellappaGounder 2)Veerammal S/oPalaniappaGounder
				477/6	477/6A	Private	Dry	377	Mani, S/o. Chinnappan
				477/7A	477/7A1	Private	Dry	343	Mani, S/o. Chinnappan
				477/7B	477/7B1	Private	Dry	180	Sembayammal, W/o. Chinnappa gounder
				477/8	477/8A	Private	Dry	608	1)RajaDevaSenapathi S/oSeenivasan 2)RajaSedupathi, S/o. Seenivasan
				477/10	477/10A	Private	Dry	669	1)P. Rangasamy, 2)P. Kandasamy, 3)P. Govindasamy

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				478/2A	478/2A1	Private	Dry	872	Balasubramaniam, S/o. Lohidasan
				483B/1	483B/1A	Private	Dry	1650	Lohidasan, S/o. Veerappagounder
				483B/2	483B/2A	Private	Dry	1313	1)Veerappan, S/o. Posungan @ ChellappaGounder 2)Kolandagounder, S/o. Chinna Gounder
				484A/1A2	484A/5	Private	Dry	125	1)Veerappan, S/o. Posungan @ ChellappaGounder 2)Kolandagounder, S/o. Chinna Gounder
				484A/1A3	484A/6	Private	Dry	82	Kuppusamy, S/o. NallaiyaGounder
				484A/1A4	484A/7	Private	Dry	82	Kannan,S/o. Ponnusamy
				484A/1B	484A/1B2	Private	Dry	163	Sundaramoorthy, S/o. Govindasamy
				484A/2	484A/2B	Private	Dry	923	Pappayee, W/o. Sellappagounder
				484B/5D2	484B/9	Private	Dry	105	Krishnamoorthy, S/o. Subban
				484B/5D3	484B/10	Private	Dry	381	1)Subramaniam, S/o. Subban, 2)Muruganandam, S/o. Samiappa Asari
				491/2D	491/2D1	Private	Dry	30	Ganesan, S/o. MuthusamyGounder
				516/3B1	516/9	Private	Dry	72	1)Dhanapal, S/o. Krishnasamy 2)Seenivasan, S/o.PalaniappaGounder 3)Rangasamy Gounder, S/o. Karumanagounder 4)Kaliappan, S/o. Palaniappan, 5)Vijayalakshmi, S/o. PanneerSelvam. 6)Ramesh, S/o. Rangasamy Gounder
				516/6C6	516/12	Private	Dry	24	1)Marappagounder, S/o. Vellagounder 2)Sengottaiyan, S/o. Perumalgounder, 3)Seenivasan, S/o. Palaniappagounder 4)Murugesan, S/o. KanagaSabapathi, 5)Subramani, /o. Kaliannagounder 6)Rajalingam, S/o. Rajagounder 7)Mayavan S/o. Seerangagounder 8)O. P. Subramaniam
				518/4	518/4B	Private	Dry	2	1)Palaniappan, S/o. Kolandagounder, 2)Kalimuthu, S/o. Karuppannagounder 3)Kadhirvel, S/o. Lingappan, 4)Soruparani, W/o. Paramasivam, 5)Muthu, S/o. Paramasivam, 6)Saravanan, S/o. Paramasivam 7)Vivekandan, S/o. Paramasivam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				518/18	518/18	Private	Dry	315	Marudayammal,W/o. Sellappagounder
				523/3A	523/3A2	Private	Dry	153	1.Kakkapaiyan@ Marudhagounder, S/o.Mottaiyagounder, 2)Jegadeesan,S/o. Samiappan, 3)Nalayinee,W/o. Jegadeesan, 4)Thilaga,W/o. Kumar, 5)Kumar,S/o. Eswaran
				523/2C2	523/8	Private	Dry	392	Kongu Kuzhalarnadu Periannamargal Samuga Kootamaippu
				523/3D1	523/9	Private	Dry	14	1)Palaniappan S/o.Kolandagounder, 2)Jegadeesan,S/o. Samiappan, 3)Nalayinee,W/o. Jegadeesan, 4)Thilaga,W/o. Kumar, 5)Kumar,S/o. Eswaran
				523/2J	523/2J2	Private	Dry	107	1)Palaniappan, S/o. Kolandagounder, 2)Malaippan, S/o Kolandagounder
				523/2M	523/2M2	Private	Dry	200	1)Palaniappagounder, S/o. Kuppannagounder, 2)Nallusamy, S/o. Marappagounder
				523/7B	523/7B2	Private	Dry	79	1)Subramani, S/o. Muthusampillai 2)Narayanan, S/o. Muthusampillai 3)Chinnapaiyan, S/o. Muthusampillai 4)Nallendran, S/o. Muthusampillai 5)Thangammal, D/o. Muthusampillai
				523/7C	523/7C2	Private	Dry	133	1)Kaliammal W/o. Marudhagounder, 2)Jegadeesan,S/o. Samiappan, 3)Nalayinee,W/o. Jegadeesan, 4)Thilaga,W/o. Kumar, 5)Kumar,S/o. Eswaran
				523/7F	523/7F2	Private	Dry	163	Balasubramaniam, S/o/Palaniappan
				524/1B28	524/8	Private	Dry	43	1)Veerappan,S/o. Ramasamy, 2)Nallaiyan,S/o. Kandasamy
				524/1B2	524/9	Private	Dry	41	Executive Officer, Paramathi TownPanchayat
				524/3D	524/3D2	Private	Dry	226	1)Kaliammal W/o. Marudhagounder, 2)Jegadeesan,S/o. Samiappan, 3)Nalayinee,W/o. Jegadeesan, 4)Thilaga,W/o. Kumar, 5)Kumar,S/o. Eswaran

[F. No. NHAI/Tech/NS-2/LA/Salem-Karur/Namakal/3A & 3(D)/2006]

P. S. RANA, Dy. Secy.